



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27—अक्तूबर 3, 2003 (आश्विन 5, 1925)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27—OCTOBER 3, 2003 (ASVINA 5, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

PART I—SECTION 4

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2003

(राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय)

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेन्ट के पद पर

सं. 541, दिनांक 21 अगस्त 03.--राष्ट्रपति महोदय सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के श्री प्रदीप सिंह तक्तर निजी सहायक (वर्ग 'ख' अराजपत्रित) (जन्म तिथि 03 अक्तूबर 1958) को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा सन् 1977 के आधार पर निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित) वेतनमान रु. 6,500-200-10,500 के स्तर पर दिनांक 01 जनवरी 1999 से नियुक्त करते हैं।

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)

सेना शाखा

सं. 542, दिनांक 26 अगस्त 03.--राष्ट्रपति सहर्ष यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

सिद्धार्थ शुक्ला (एम आर-07855एल), ए एम सी--22.02.2003

अभिषेक कुमार शुक्ला (एम आर-07856एन), ए एम सी--22.02.2003

अशोक कुमार (एम आर-07858वाई), ए एम सी--22.02.2003

ए डब्ल्यू काशीफ (एम आर-07859एफ), ए एम सी--22.02.2003

विपिन वी नायर (एम आर-07860डब्ल्यू), ए एम सी--22.02.2003

(कु.) शैलेन्द्र कौर (एम आर-07861वाई), ए एम सी--22.02.2003

वादल पारिख (एम आर-07862एफ), ए एम सी--22.02.2003

अंकुर जोशी (एम आर-07863के), ए एम सी--22.02.2003

देवेन्द्र कुमार गुप्ता (एम आर-07864एम), ए एम सी--22.02.2003

एम. श्रीवास्तवा

बिग्रेडियर

उप डीजीएफएमएस (पी)

वायु सेना शाखा

सं. 543, दिनांक 25 अगस्त 03.--राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से प्रसन्नतापूर्वक सी जा ओ (ए) के पद पर प्रतिनियुक्त करते हैं।

सी जी ओ (ए)

श्री एम कुमार, 8 अगस्त 02

श्री एस के मलकानी, 9 अगस्त 02

श्री एस आर मोहपात्रा, 28 अगस्त 02

श्री एम के सिंह, 28 अगस्त 02

श्री सी पी सिंह, 29 अगस्त 02

श्री एन एस शरावत, 29 अगस्त 02

श्री नरेश कुमार, 29 अगस्त 02

श्री अशोक कुमार, 03 अक्टूबर 02

श्री के मलिक, 29 अक्टूबर 02

श्री बी बी मिश्रा, 05 जनवरी 03

श्री एस चौधरी, 15 मार्च 03

श्री सी एस एन मूर्ती, 17 अप्रैल 03

एस. एम. सेठी

संयुक्त निदेशक का असैनिक

सं. 544, दिनांक 22 अगस्त 03.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

वायु रक्षा तोपखाना कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (टी.आई.एफ.सी.) के पद में

सूबेदार राजा गोपाल के (जेसी-193497एफ), 01 मई 2003

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (एस.के.टी.) के पद में

सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-257007एम), 01 मई 2003

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी.डी.) के पद में

नायब सूबेदार दिनेश सिंह (जेसी-297037एम), 20 नवम्बर 2002/15 जुलाई 2002 *

नायब सूबेदार गुरदियाल सिंह (जेसी-297603एफ), 06 सितम्बर 2002/15 जुलाई 2002 *

नायब सूबेदार सुरेंद्र कुमार (जेसी-297722एक्स), 06 सितम्बर 2002/15 जुलाई 2002 *

नायब सूबेदार रमेश चंद (जेसी-297745वाई), 31 मार्च 2003/27 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार सुबाश चंदर (जेसी-297765एम), 24 अप्रैल 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह (जेसी-297291डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2003/01 नवम्बर 2002 *

नायब सूबेदार गणेश सिंह (जेसी-297550एन), 31 मार्च 2003/01 नवम्बर 2002 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-297661एल), 28 मार्च 2003/01 दिसम्बर 2002 *

नायब सूबेदार राम मेहर सिंह (जेसी-297798एक्स), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार गिरजा प्रसाद (जेसी-297668पी), 03 मार्च 2003/01 फरवरी 2003 *

नायब सूबेदार हरी कुमार रबिदास (जेसी-297790एल), 20 अप्रैल 2003/01 फरवरी 2003 *

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-297791एन), 08 मई 2003/01 फरवरी 2003 *

नायब सूबेदार अधीर रंजन दास (जेसी-297659एन), 11 मार्च 2003/15 फरवरी 2003 *

नायब सूबेदार मुरुगेश (जेसी-297354एन), 12 मई 2003/28 फरवरी 2003 *

नायब सूबेदार प्रहलाद सिंह (जेसी-297577एल), 30 अप्रैल 2003/28 फरवरी 2003 *

नायब सूबेदार खुदानूर (जेसी-297946एक्स), 10 मार्च 2003/01 मार्च 2003 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश राय (जेसी-297172ए), 29 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003 *

नायब सूबेदार भैरव चौधरी (जेसी-297367एल), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार वीरूपक्षप्पा मातोल्ली (जेसी-297818ए), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार मुखतेश्वर सिंह (जेसी-296993एच), 28 अप्रैल 2003/14 अप्रैल 2003 *

नायब सूबेदार राठोड गनपत (जेसी-297585के), 02 जून 2003/15 अप्रैल 2003 *

नायब सूबेदार भजयपाल सिंह (जेसी-297190एम), 17 मई 2003/23 अप्रैल 2003 *

नायब सूबेदार श्री नरिंदर पाल (जेसी-297427पी), 01 मई 2003

सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार सुरज भान (जेसी-296575एन), 16 मई 2003/01 मई 2003 *

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-296576डब्ल्यू), 01 जून 2003

नायब सूबेदार धरम पाल सिंह (जेसी-296599एक्स), 01 जुलाई 2003

सब्सटेंटिव सूबेदार (एस.के.टी.) के पद में

नायब सूबेदार शक्ती चंद शर्मा (जेसी-296911पी), 01 मई 2003

नायब सूबेदार हिरालाल राजकुमार (जेसी-297237एच), 08 मई 2003/01 मई 2003 *

सब्सटेंटिव सूबेदार (टी.आई.एफ.सी.) के पद में

नायब सूबेदार सुंदर लाल (जेसी-297567एफ), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार राकेश (जेसी-297596डब्ल्यू) 02 जून 2003/01 जून 2003 *

नायब सूबेदार नथू सिंह (जेसी-297599के), 01 जून 2003

नायब सूबेदार ए पंडी (जेसी-297632डब्ल्यू), 01 जुलाई 2003

*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

राजेन्द्र चतुर्वेदी
अवर सचिव

सं. 545, दिनांक 31 अगस्त 03.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेवा

सेना शारिरीक प्रशिक्षण कोर

पेड कार्यकारी सूबेदार महेंधिरन ए (जेसी-826068ए), 03 जून 2003/01 जून 2003 *

पेड कार्यकारी सूबेदार शेर सिंह कटवल (जेसी-826069एच), 03 जून 2003/01 जून 2003 *

*वरीयता दिनांक

बलराम वर्मा
अवर सचिव

एम जी ओ/ई एम ई कार्मिक

सं. 546, दिनांक 22 अगस्त 03.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार पीताम्बर दत्त नैनवाल (जेसी-225301वाई), 01 मई 2003

सूबेदार किशपाल सिंह (जेसी-222292एक्स), 02 जून 2003/01 मई 2003 *

सूबेदार बलबीर सिंह शिवराम (जेसी-222469ए), 27 मई 2003/01 मार्च 2003 *

सूबेदार दिवाकरा कुरूप पी बी (जेसी-222094एम), 10 मई 2003/01 मई 2003 *

सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-222472ए), 01 मई 2003 *

सूबेदार मेजर टेक ए वी एन के रैंक में

सूबेदार करनाटि वेंकटरामिरेडडी (जेसी-211661के), 28 मई 2003/01 अप्रैल 2003 *

सूबेदार मेजर आरटीजन (एन ई) के रैंक में

सूबेदार प्रसन्ना कुमार पिल्लै (जेसी-747422एच), 07 मई 2003/01 मई 2003 *

सूबेदार मेजर रेक मेक के रैंक में

सूबेदार दुंगा राम (जेसी-225319पी), 05 मई 2003/01 मई 2003 *

सूबेदार मेजर ड्राईवर एम टी के रैंक में

सूबेदार गुगान राम (जेसी-748682ए), 01 मई 2003

सूबेदार तारकेश्वर सिंह (जेसी-748698एल), 07 मई 2003/01 मई 2003 *

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार तुलसी राम (जेसी-752952एफ), 28 अप्रैल 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार चन्द्रा शेखर मुंगाली (जेसी-753269एन), 06 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार मृत्युञ्जय देबनाथ (जेसी-753241एन), 03 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार बिपुल चन्द्रा बोरा (जेसी-752648एक्स), 02 मई 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार पूरण चन्द (जेसी-753110एच), 20 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार गुप्ता (जेसी-753523एच), 01 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार सेल्चराजु के (जेसी-751084एन), 15 जून 2002/01 अक्टूबर 2001 *

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-753450एल), 06 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार रणबीर सिंह (जेसी-753145वाई), 03 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-752567एल), 12 मई 2003/01 मई 2002 *

नायब सूबेदार अरविन्दा कुमार (जेसी-753132एफ), 10 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार जोसफ फ्रांसिस (जेसी-752957ए), 04 मई 2003/28 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार उमेश कुमार झा (जेसी-753188एन), 28 अप्रैल 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार चरण सिंह (जेसी-753310वाई), 17 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार जी गोविन्द राज (जेसी-753233पी), 30 अप्रैल 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार राम रतन (जेसी-753144डब्ल्यू), 06 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार केश राम बोरा (जेसी-751420पी), 19 मई 2003/01 नवम्बर 2001 *

नायब सूबेदार डी डी एम त्रिपाठि (जेसी-753394एक्स), 07 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार ए सुन्नाया (जेसी-753477एच), 26 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार प्रवीर कुमार बाल (जेसी-753397एल), 31 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार दत्तात्रेया एन जी (जेसी-753120एम), 21 अप्रैल 2003/01 जुलाई 2002 *

नायब सूबेदार देवेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-755153ए), 28 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार प्रकाश मुंगा राणो (जेसी-751632ए), 15 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2001 *

नायब सूबेदार रामेश्वर मोहन्ता (जेसी-753237एल), 19 अप्रैल 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार बिक्रम सिंह (जेसी-753189डब्ल्यू), 02 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार हबीबुर रहमान (जेसी-752964डब्ल्यू), 03 मई 2003/01 जुलाई 2002 *

सूबेदार (एन ई) आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार वसन्ता कुमार सी सी (जेसी-754926वाई), 01 मई 2003/01 दिसम्बर 2001 *

सूबेदार आरटीजन के रैंक में (एन ई)

नायब सूबेदार चन्देश्वर शर्मा (जेसी-752934वाई), 01 मई 2003/01 नवम्बर 2001 *

नायब सूबेदार शिव बहादुर (जेसी-751858एल), 29 मई 2003/01 अगस्त 2001 *

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार महेश्वर प्रधान (जेसी-752778ए), 27 मई 2003/01 मई 2003 *

नायब सूबेदार विजया कुमार के (जेसी-752776पी), 15 मार्च 2003/01 फरवरी 2003 *

सूबेदार ड्राइवर (एम टी) के रैंक में

नायब सूबेदार कल्लू प्रसाद (जेसी-753088एच), 24 मई 2003/01 अक्टूबर 2001 *

नायब सूबेदार दिलीप सिंह बिष्ट (जेसी-752497के), 29 अप्रैल 2003/01 सितम्बर 2001 *

*(पिछली तारीख से श्रेष्ठता दी जाती है)

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार प्रकाश चन्द्रा (जेसी-221935एक्स), 01 अप्रैल 2003

सूबेदार रामावतार जंगीर (जेसी-210170एफ), 21 अप्रैल 2003/01 फरवरी 2003 *

सूबेदार ओंकार अग्निहोत्रि (जेसी-210177एल), 31 मार्च 2003/01 जनवरी 2003 *

सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-222077एम), 01 फरवरी 2003

सूबेदार राम भजन सिंह पाल (जेसी-222086एन), 01 मई 2003

सूबेदार गिरिधारी लाल (जेसी-222261एक्स), 01 अप्रैल 2003

सूबेदार वेणुगोपालन पी (जेसी-222221डब्ल्यू), 01 मई 2003

सूबेदार रोहतास सिंह लम्बा (जेसी-222277एच), 09 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003 *

सूबेदार राम किशोर कतियार (जेसी-222410ए), 01 मई 2003

सूबेदार प्रभाकर प्रधान (जेसी-222473एच), 01 मई 2003 *

सूबेदार मेजर क्लर्क (जी डी) के रैंक में

सूबेदार बाला राम साहू (जेसी-224025पी), 01 मई 2003

सूबेदार मेजर टेक (ए वी एन) के रैंक में

सूबेदार सूरजा राम (जेसी-202206ए), 07 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003 *

सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-214051एच), 01 मई 2003 *

सूबेदार मेजर आरटीजन (एन ई) के रैंक में

सूबेदार श्री राम सिंह (जेसी-222023एल), 21 फरवरी 2003/01 दिसम्बर 2002 *

सूबेदार शैख सिद्दिक (जेसी-751215एन), 01 मई 2003

सूबेदार मेजर झाईवर (एम टी) के रैंक में

सूबेदार गजेन्द्रा जंग राणा (जेसी-749068एक्स), 01 मई 2003

सूबेदार मेजर धर्म शिक्षक के रैंक में

सूबेदार मोहेन्द्र प्रसाद चौरशिया (जेसी-87493ए), 20 मार्च 2003/01 मार्च 2003 *

सूबेदार राम कुमार सिंह (जेसी-89890एक्स), 07 अप्रैल 2003/01 मार्च 2003 *

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-752641एन), 01 मार्च 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार ब्रज किशोर (जेसी-752658एफ), 01 मार्च 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार हरगोविन्द नामदेव (जेसी-752653एच), 25 मार्च 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार अजय कुमार सिन्हा (जेसी-751588एफ), 27 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2001 *

नायब सूबेदार विनोद सिंह रावत (जेसी-752564के), 01 फरवरी 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार हरिभन दत्त चौबे (जेसी-753103एम), 17 दिसम्बर 2002/01 जुलाई 2002 *

नायब सूबेदार भवर शंकर राव सुदम (जेसी-751745एच), 17 फरवरी 2003/01 नवम्बर 2001 *

नायब सूबेदार आंथोनी के सी (जेसी-752531वाई), 01 फरवरी 2003/01 मई 2002 *

नायब सूबेदार एम ए अली (जेसी-752565एम), 25 फरवरी 2003/01 मई 2002 *

नायब सूबेदार विश्वनाथ सेन गुप्ता (जेसी-752001पी), 01 मार्च 2003/01 नवम्बर 2001 *

नायब सूबेदार ए सेल्वरज (जेसी-753037पी), 01 जनवरी 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार रणवीर सिंह सविता (जेसी-752583एफ), 01 फरवरी 2003/01 मई 2002 *

नायब सूबेदार कुलबहादुर चैत्री (जेसी-752649ए), 27 मार्च 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार अनन्त रामन जी (जेसी-753096एफ), 01 मार्च 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार चन्द्रकान्त (जेसी-751570एल), 12 अप्रैल 2003/01 अक्टूबर 2001 *

नायब सूबेदार हेम राज (जेसी-750845एफ), 28 अप्रैल 2003/01 सितम्बर 2001 *

नायब सूबेदार तन्वीर अहमद (जेसी-753149पी), 29 अप्रैल 2003/01 जुलाई 2002 *

नायब सूबेदार पंचम सिंह (जेसी-753275एफ), 29 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार एम आर चन्देल (जेसी-753142एल), 27 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार श्यामा कांत पथक (जेसी-753487एच), 01 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार रामकृष्णा (जेसी-752969पी), 26 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार उत्तम चेत्री (जेसी-753104पी), 28 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार गोपाल दत्त (जेसी-752889एक्स), 28 अप्रैल 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार देवेन्द्र दत्त शुक्ला (जेसी-753174एन), 27 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार संत कुमार दोतासारा (जेसी-753306डब्ल्यू), 07 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार सी चिन्नादुराय (जेसी-752859ए), 28 अप्रैल 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार महीन्द्र सिंह वर्मा (जेसी-753159पी), 28 अप्रैल 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार रूप चन्द (जेसी-753143एन), 29 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार शिशु राम गुरजार (जेसी-753293के), 30 अप्रैल 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार बिजी के वो (जेसी-753130डब्ल्यू), 07 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार हरप्रसाद सिंह पयना (जेसी-755152एच), 23 अप्रैल 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार जगराम सिंह (जेसी-752949एफ), 07 मई 2003/01 जून 2002 *

नायब सूबेदार एस मोहम्मद इब्रहीम (जेसी-753239डब्ल्यू), 01 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार सम लाल (जेसी-753878एक्स), 09 मई 2003/01 नवम्बर 2002 *

नायब सूबेदार रबीन्द्र नाथ पाल (जेसी-753391के), 03 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार बिक्रमजीत सिंह (जेसी-753202पी), 02 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार बिनय कृष्णा पाल (जेसी-753039ए), 01 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार निधान सिंह (जेसी-753163एफ), 29 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार अप्पाजी पाटिल (जेसी-753162वाई), 26 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-753197पी), 26 अप्रैल 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार श्री निवास सिंह (जेसी-751403पी), 10 मई 2003/01 नवम्बर 2001 *

नायब सूबेदार शिवराज कुमार वशिष्ठा (जेसी-753036एम), 02 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार योगीन्द्र सिंह यादव (जेसी-753472के), 01 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार ब्रज बिहारी (जेसी-753307वाई), 12 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार भुपेन्द्र प्रसाद (जेसी-752972पी), 07 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार मुबारक हुस्सैन (जेसी-753105एक्स), 30 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार धर्मानन्द (जेसी-753113डब्ल्यू), 05 मई 2003/01 जुलाई 2002 *

नायब सूबेदार सूर्यजी अक्रम नलवाड़ा (जेसी-753138एच), 19 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार सुशील कुमार (जेसी-753803ए), 18 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002 *

नायब सूबेदार नीलमणि साहू (जेसी-751018एल), 13 मई 2003/01 अक्टूबर 2001 *

नायब सूबेदार यशवंत सिंह रावत (जेसी-753101एफ), 05 मई 2003/01 जुलाई 2002 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-753032डब्ल्यू), 26 अप्रैल 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार प्रणवानन्दा पाल (जेसी-753242डब्ल्यू), 16 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार रूदल प्रसाद (जेसी-753309के), 09 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार एन सी घोष (जेसी-753382एच), 10 मई 2003/01 सितम्बर 2002 *

नायब सूबेदार उत्तम कुमार सरकार (जेसी-753474पी), 14 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार कमल इकबाल सिंह (जेसी-753481एल), 01 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार राम अवध (जेसी-753483डब्ल्यू), 01 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार सत्यबीर सिंह (जेसी-753485एफ), 01 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार नानि राण एम (जेसी-753441के), 21 मई 2003/01 अक्टूबर 2002 *

नायब सूबेदार बालकृष्ण (जेसी-753152पी), 07 मई 2003/01 अगस्त 2002 *

नायब सूबेदार रोहताष सिंह (जेसी-753399डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2003/01 अक्टूबर 2002 *

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार सुलेमान खान (जेसी-752721एल), 30 दिसम्बर 2002/01 अगस्त 2001 *

नायब सूबेदार रेशम सिंह (जेसी-753251एक्स), 12 अप्रैल 2003/01 सितम्बर 2001 *

नायब सूबेदार एस सुब्बाराव (जेसी-753018के), 14 जनवरी 2003/01 सितम्बर 2001 *

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार यमुना प्रसाद (जेसी-753212वाई), 01 मार्च 2003/01 सितम्बर 2001 *

नायब सूबेदार आर ए शर्मा (जेसी-752933डब्ल्यू), 01 मई 2003/01 नवम्बर 2001 *

नायब सूबेदार ओमकार सिंह (जेसी-752874पी), 14 मई 2003/01 दिसम्बर 2001 *

सूबेदार टेक (ए वी एन) के रैंक में

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-755603एच), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-755376एन), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जेसी-755394डब्ल्यू), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार बलराम (जेसी-755390ए), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार ए के सिंह (जेसी-755395वाई), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार जी लिंगाराजा दोरा (जेसी-755388एच), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार विद्या सागर (जेसी-755377डब्ल्यू), 01 मई 2003

नायब सूबेदार एस रवि (जेसी-755600पी), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार दिनेश चन्द्रा त्रिपाठी (जेसी-755601एक्स), 12 मई 2003/01 अप्रैल 2003 *

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार तुलसी चरण (जेसी-753215एम), 10 मार्च 2003/01 फरवरी 2003 *

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-753414ए), 03 फरवरी 2003/01 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार भीम प्रताप बिंद (जेसी-753518एल), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-753520के), 15 अप्रैल 2003/01 मार्च 2003 *

सूबेदार रेक मैकानिक के रैंक में

नायब सूबेदार विषन देव (जेसी-751920एक्स), 01 मार्च 2003/01 नवम्बर 2001 *

नायब सूबेदार उमेश सिंह (जेसी-751991एन), 01 मई 2003

नायब सूबेदार हरा प्रसाद बोस (जेसी-751649एन), 01 अप्रैल 2003/01 अक्टूबर 2001 *

सूबेदार अरमोर के रैंक में

नायब सूबेदार घिसा लाल (जेसी-754015एच), 26 मार्च 2003/01 अक्टूबर 2001 *

नायब सूबेदार वर्मा घनश्याम जगन्नाथजी (जेसी-752685एल), 12 मार्च 2003/01 अगस्त 2001 *

नायब सूबेदार नित्यानन्द शर्मा (जेसी-754221एम), 02 मई 2003/01 अक्टूबर 2001 *

सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

नायब सूबेदार जग नारायण राम (जेसी-752337के), 02 फरवरी 2003/01 सितम्बर 2001 *

नायब सूबेदार अवध नारायण यादव (जेसी-752789एम), 07 अप्रैल 2003/01 अक्टूबर 2001 *

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-754967एच), 01 जनवरी 2003/01 अक्टूबर 2000 *

नायब सूबेदार पी के शशिधरन (जेसी-752792एम), 01 मई 2003/01 अक्टूबर 2001 *

नायब सूबेदार नारायण सरेन (जेसी-752903वाई), 01 मई 2003/01 अक्टूबर 2001 *

नायब सूबेदार कौशल किशोर (जेसी-752790एफ), 07 मई 2003/01 अक्टूबर 2001 *

सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार राधाकृष्णन द्विवेदी (जेसी-748048एक्स), 31 मार्च 2003/01 मार्च 2003 *

*(पिछली तारीख से श्रेष्ठता दी जाती है)

सेना आयुध कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन मधुकर मेहता (6927726एम अब जेसी-725739एक्स), 03.06.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन दीपक कुमार राउत (6927791एन अब जेसी-725740एम), 01.06.2002

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन लक्ष्मी कान्त प्रधान (6927807एन अब जेसी-725741पी), 01.06.2002

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन शिरडो चन्द्रो जेना (6927835ए अब जेसी-725742एक्स), 01.06.2002

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन बलदेव सिंह तायल (6917448एक्स अब जेसी-725743ए), 27.05.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एस कन्ट्रोल परमिन्दर सिंह (6917469वाई अब जेसी-725744एच), 13.06.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एस कन्ट्रोल श्री नाथ सिंह (6917467एच अब जेसी-725745एल), 01.06.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जय प्रकाश चौबे (6917468एल अब जेसी-725746एन), 01.06.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल विजय सिंह जरवाल (6917461एफ अब जेसी-725747डब्ल्यू), 01.06.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल विजय कुमार शर्मा (6917477एम अब जेसी-725748वाई), 04.06.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जोगींदर सिंह ठाकुर (6917488वाई अब जेसी-725749एफ), 01.06.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल कुलदीप सिंह (6917489एफ अब जेसी-725750डब्ल्यू), 20.06.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल उदय प्रताप सिंह (6917498एम अब जेसी-725751वाई), 15.06.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल ए उमेश (6917500पी अब जेसी-725752एफ), 01.06.2002

हवलदार एसकेटी एमटी शेष नाथ पांडे (6914555एन अब जेसी-725753के), 27.05.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2001 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी अमुनिशन ओम प्रकाश गोदरा (6919745के अब जेसी-725754एम), 21.05.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी अमुनिशन अशोक कुमार (6919751एक्स अब जेसी-725755पी), 01.06.2002

हवलदार एसकेटी एमटी प्रभात सिंह सिसोदिया (6919756एफ अब जेसी-725756एक्स), 01.06.2002

हवलदार एसकेटी एमटी मोहर सिंह (6919768एलअब जेसी-725757ए), 01.06.2002

हवलदार एसकेटी इंजीनियर जयभगवान (6919778पी अब जेसी-725758एच), 01.06.2002

हवलदार ड्राईवर स्पेशल भंवर लाल (6912304एल अब जेसी-725759एल), 18.05.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर स्पेशल इंद्रा सिंह (6912263एम अब जेसी 725760ए) 01.05.2002

हवलदार ड्राइवर एमटी पी सुब्रमनियम (6912229एम अब जेसी-725761एच), 23.06.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर एमटी राजेन्द्र कुमार शुक्ला (6912488पी अब जेसी-725762एल), 20.06.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एस एच जी डी राम शंकर सिंह (6911758एम अब जेसी-725763एन), 01.06.2002

हवलदार एस एच जी डी वीरा भद्रया (69112178के अब जेसी-725764डब्ल्यू), 09.06.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन गोविन्द प्रसाद (6927870एच अब जेसी-725765वाई), 01.07.2002

हवलदार क्लर्क कंट्रोल दलेर सिंह (6917480एम अब जेसी-725766एफ), 25.06.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राम प्रताप सिंह (6917499एल अब जेसी-725767के), 26.06.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी मदन लाल (6913311एन अब जेसी-725768एम), 01.07.2002

हवलदार क्लर्क जी डी राम प्रताप (6916770एक्स अब जेसी-725769पी), 01.07.2002

हवलदार क्लर्क जी डी शिव शंकर रे (6917342एल अब जेसी-725770के), 01.07.2002

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सुभाष सिंह (6917517एम अब जेसी-725771एम), 01.07.2002

हवलदार एसकेटी एमटी मान सिंह (6919760वाई अब जेसी-725772पी), 01.06.2002

हवलदार एसकेटी इंजीनियर बाबू सिंह (6919782एक्स अब जेसी-725773एक्स), 01.07.2002

हवलदार एसकेटी इंजीनियर उदय सिंह (6919784एच अब जेसी-725774ए), 01.07.2002

हवलदार एसकेटी जीएस एण्ड सी राजपूत रामधर सिंह (6919787डब्ल्यू अब जेसी-725775एच), 01.07.2002

हवलदार ड्राइवर एमटी शाम नारायण राम (6912501एन अब जेसी-725776एल), 01.06.2002

हवलदार एस एच जी डी गबरु भंगू जाधव (6912315एक्स अब जेसी-725777एन), 01.06.2002

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन नरेन्द्र नाथ रथ (6927793वाई अब जेसी-725778डब्ल्यू), 05.06.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन जाधव भगवान कृष्णा (6927839डब्ल्यू अब जेसी-725779वाई), 01.07.2002

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन जाधव सुनील वसंत (6924337एच अब जेसी-725780एन), 01.07.2002

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन विष्णु प्रियो त्रिपाठी (6927819एच अब जेसी-725781डब्ल्यू), 01.07.2002

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन जगमोहन शर्मा (6927857वाई अब जेसी-725782वाई), 01.07.2002

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल जुज्जर सिंह (6917462के अब जेसी-725783एफ), 06.07.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सतिन्दर कुमार (6917478पी अब जेसी-725784के), 28.06.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल जगदीप सिंह (6917485एल अब जेसी-725785एम), 25.06.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल दविन्दर सिंह (6917509के अब जेसी-725786पी), 01.07.2002

हवलदार क्लर्क एस प्राविजन नरीपेन्द्र सरकार (6910479पी अब जेसी-725787एक्स), 01.07.2002.

हवलदार क्लर्क जी डी राम निवास शर्मा (6917351एम अब जेसी-725788ए), 08.07.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क कंट्रोल तरसेम सिंह मनहास (6917514पी अब जेसी-725789एच), 01.07.2002

हवलदार क्लर्क कंट्रोल जगबीर सिंह (6917504एल अब जेसी-725790एक्स), 01.07.2002.

हवलदार एसकेटी एमटी धरम पाल (6919736एच अब जेसी-725791ए), 30.05.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एमटी अम्बा लाल जमीन्द (6919755एन अब जेसी-725792एच), 28.06.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी अमुनिशन देश राज (6919767एच अब जेसी-725793एल), 11.07.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एमटी रविन्द्र सिंह तोमर (6919774एच अब जेसी-725794एन), 01.06.2002

हवलदार एसकेटी जीएस एण्ड सी राम गोपाल सिंह (6919780एम अब जेसी-725795डब्ल्यू), 13.06.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन राजेन्द्र प्रसाद (6919792एफ अब जेसी-725796वाई), 02.07.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एमटी जय सिंह यादव (6919798एच अब जेसी-725797एफ), 01.07.2002

हवलदार एसकेटी अमुनिशन सतनाम सिंह (6919801एच अब जेसी-725798एक्स), 01.07.20002

हवलदार एसकेटी वेपन महेश चन्द्र दुबे (6919802ए अब जेसी-725799एम), 01.07.2002

हवलदार एसकेटी इंजीनियर जगदीश चन्द्र (6919803एच अब जेसी-725800डब्ल्यू), 01.07.2002

हवलदार एसकेटी जीएस एण्ड सी देवेन्द्र कुमार राउत (6917142 अब जेसी-725801वाई), 01.07.2002

हवलदार एसकेटी इंजीनियर स्वर्ण सिंह (6914282डब्ल्यू अब जेसी-725802एफ), 01.07.2002

हवलदार एसकेटी सिगनल सुग्रीन सिंह (6919793के अब जेसी-725803के), 09.07.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एस एच टी के सुधाकरण नायर (6912700एफ अब जेसी-725804एम), 01.07.2002

हवलदार एस एचजी डी कोशल प्रसाद घसिया (6911607 एन अब जेसी-725805पी), 22.06.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनीशियन दयानिधी बेहरा (6927786एन अब जेसी-725806एक्स), 17.07.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनीशियन ससीधरण के (6924625पी अब जेसी-725807ए), 01.08.2002

हवलदार अमुनिशन तकनीशियन यशलापु गंगा राजु (6925101ए अब जेसी-725808एच), 01.08.2002

हवलदार अमुनिशन तकनीशियन धात्रे वस्वराज नारायन (6924559एक्स अब जेसी-725809एल), 01.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल गिरिन्द्र सिंह बरमा (6917502ए अब जेसी-725810ए), 22.06.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राम आसरे सिंह (6917508एफ अब जेसी-725811एच), 04.07.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल मोहिन्दर सिंह (6915639एन अब जेसी-725812एल), 01.07.2002

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन चाको बी सी (6915693एफ अब जेसी-725813एन), 01.07.2002

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल वीरेन्द्र नाथ सिंह (6917518एल अब जेसी-725814डब्ल्यू), 01.08.2002

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राकेश (6917519एन अब जेसी-725815वाई), 01.08.2002

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल मोहन सिंह (6917521एल अब जेसी-725816एफ), 05.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल शमशेर सिंह (6917524वाई अब जेसी-725817के), 01.08.2002

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल शिवनारायण सिंह (6917526के अब जेसी-725818एम), 01.08.2002

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल तेज प्रताप (6917527एम अब जेसी-725819पी), 11.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल रूप चन्द्र सिंह कुशवाह (6917528पी अब जेसी-725820के), 05.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल मुन्नी लाल शर्मा (6917529एक्स अब जेसी-725821एम), 01.08.2002

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सुखदेव सिंह (6917533ए अब जेसी-725822पी), 01.08.2002

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल मोहम्मद उस्मान (6917534एब अब जेसी-725823एक्स), 01.08.2002

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल नाहर सिंह (6917535एल अब जेसी-725824ए), 09.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल परशु राम (6917536एन अब जेसी-725825एब), 01.08.2002

हवलदार एसकेटी अमुनिशन संजय कुमार (6919712वाई अब जेसी-725826एल), 25.07.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन अमर सिंह (6919795पी अब जेसी-725827एन), 01.07.2002

हवलदार एसकेटी सिगनल देवेन्द्र पाल सिंह (6919796एक्स अब जेसी-725828डब्ल्यू), 01.07.2002

हवलदार एसकेटी एमटी जल सिंह (6919764पी अब जेसी-725829वाई), 20.07.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी सिगनल सुरेश कुमार (6919814पी अब जेसी-725830एन), 01.08.2002

हवलदार एसकेटी जीएस एण्ड सी लक्ष्मीधर प्रधान (6919825एफ अब जेसी-725831डब्ल्यू), 06.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी जीएस एण्ड सी सरोज कुमार राउत (6919827एम अब जेसी-725832वाई), 01.08.2002

हवलदार एसकेटी जीएस एण्ड सी भगीरथ साहु (6919839एफ अब जेसी-725833एफ), 06.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन बिराडार बस्वराज शिव गोंडार्या (6919841वाई अब जेसी-725834के), 01.08.2002

हवलदार एसकेटी जीएस एण्ड सी प्रशान्त कुमार तुपकुला (6919845पी अब जेसी-725835एम), 01.08.2002

हवलदार एसकेटी जीएस एण्ड सी गंगा सिंह (6919852एल अब जेसी-725836पी), 17.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी जीएस एण्ड सी विजयन एम पी. (6919853एन अब जेसी-725837एक्स), 01.08.2002

हवलदार एसकेटी वेपन प्रकाश (6919838ए अब जेसी-725838ए), 20.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनीशियन आर शिव प्रकाशम (6925113पी अब जेसी-725839एब), 01.09.2002

हवलदार अमुनिशन तकनीशियन एम संकरलिंग (6926055एब अब जेसी-725840एक्स), 01.09.2002

हवलदार अमुनिशन तकनीशियन बीआर पटेल (6926287एफ अब जेसी-725841ए), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल तिलक राज सैनी (6917530एम अब जेसी-725842एच), 31.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल भूप सिंह (6927122 पी अब जेसी-725843एल), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राम सिंह (6927123एक्स अब जेसी-725844एन), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल चौधरी अनिल कुमार (6927126 एल अब जेसी-725845डब्ल्यू), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राम मेहर (6927129वाई अब जेसी-725846वाई), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सुखबीर सिंह (6927131डब्ल्यू अब जेसी-725847एफ), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मनोहर लाल (6927136पी अब जेसी-725848के), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल दलेर सिंह (6927297एक्स अब जेसी-725849एम), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल रमेश चन्द्र (6927325वाई अब जेसी-725850एफ), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल विनोद कुमार (6927422डब्ल्यू अब जेसी-725851के), 02.09.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सुरेन्द्र कटोच (6927504वाई अब जेसी-725852एम), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल ए के शर्मा (6927596के अब जेसी-725853पी), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल एस क्यु खान (6927515ए अब जेसी-725854एक्स), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बी. मिश्रा (6927680डब्ल्यू अब जेसी-725855ए), 13.09.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एमटी सुरेश पी. पी. (6919777एच अब जेसी-725856एच), 16.07.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी सिगनल प्रकाश नारायण (6919813एम अब जेसी-725857एल), 09.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी अमुनिशन ब्रिज मोहन (6919815एक्स अब जेसी-725858एन), 01.08.2002 *

हवलदार एसकेटी जी एस एन्ड सी रमेश चन्द्र सिंह (6919821एल अब जेसी-725859डब्ल्यू), 16.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन पी. पी. राम दास (6919823डब्ल्यू अब जेसी-725860एल), 01.08.2002

हवलदार एसकेटी वेपन के. परीदा (6919837डब्ल्यू अब जेसी-725861एन), 27.08.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी अमुनिशन राजेश कुमार (6919851एच अब जेसी-725862डब्ल्यू), 01.08.2002

हवलदार एसकेटी जी एस एन्ड सी. के. सी. शर्मा (6919855वाई अब जेसी-725863वाई), 01.09.2002

हवलदार एसकेटी अमुनिशन सुरेन्द्र चन्द्र पाल (6919856एफ अब जेसी-725864एफ), 01.09.2002

हवलदार एसकेटी इंजीनियर के. के. शर्मा (6919857के अब जेसी-725865के), 01.09.2002

हवलदार एसकेटी जी एस एन्ड सी दया राम (6919859पी अब जेसी-725866एम), 01.09.2002

हवलदार एसकेटी इंजीनियर के. के. प्रखल (6919865एच अब जेसी-725867पी), 01.09.2002

हवलदार एसकेटी जी एस एन्ड सी अमर सिंह (6919871डब्ल्यू अब जेसी-725868एक्स), 01.09.2002

हवलदार एसकेटी वेपन फुल सिंह (6919883एल अब जेसी-725869ए), 01.09.2002

हवलदार एसकेटी जी एस एन्ड सी जगदाले सुनिल सोपान (6919888के अब जेसी-725870पी), 01.09.2002

हवलदार एसकेटी इंजीनियर सुरेन्द्र सिंह नेगी (6919892एम अब जेसी-725871एक्स), 01.09.2002

हवलदार एसकेटी वेपन अजित कुमार दास (6919932एच अब जेसी-725872ए), 01.09.2002

हवलदार एसकेटी सिगनल जे. के. मिश्रा (6919934एन अब जेसी-725873एच), 01.09.2002

हवलदार पेंटर (युनीट) के. के. राय (6915474ए अब जेसी-725874एल), 01.09.2002

हवलदार मेटल स्मित रामेश्वर पतेश्वरी (6916333एक्स अब जेसी-725875एन), 14.08.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर स्पेशल शंकर सरकार (6912524पी अब जेसी-725877वाई), 01.06.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल हंस राज (6917537वाई अब जेसी-725878एफ), 17.08.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल प्रीतम सिंह (6917538वाई अब जेसी-725879के), 10.09.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जी सी साही (6927397डब्ल्यू अब जेसी-725880वाई), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अरविन्द कुमार उपाध्याय (6927513ए अब जेसी-725881एफ), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एसकेटी एस टी जी आयाप्पन (6919786एन अब जेसी-725882के), 05.10.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन सुरेन्द्र यादव (6919898एन अब जेसी-725883एम), 28.09.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी सिगनल मनसा राम घोश (6919808एफ अब जेसी-725884पी), 31.08.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन राम राज पाल (6919897एल अब जेसी-725885एक्स), 01.09.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सोहन सिंह गेहलोत (6914472एच अब जेसी-725886ए), 23.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मेघ सिंह (6927512एक्स अब जेसी-725887एच), 11.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सतवन्त सिंह (6927696एफ अब जेसी-725888एल), 01.10.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल आसुतोशसाह (6927762वाई अब जेसी-725889एन), 01.10.2002

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सेहगल सिंह (6927764ए अब जेसी-725890एच), 01.10.2002

हवलदार क्लर्क जी डी हारी लाल एस के (6925961 एन अब जेसी-725891एल), 01.11.2002

हवलदार क्लर्क जी डी उन्नीकृष्णन सी (6925974एल अब जेसी-725892एन), 01.11.2002

हवलदार क्लर्क जी डी माहनन पी एम (6925975एच अब जेसी-725893डब्ल्यू), 09.11.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी अगसताईन जॉर्ज (6925980वाई अब जेसी-725894वाई), 01.11.2002

हवलदार क्लर्क जी डी अनिल कुमार ओ पी (6925982के अब जेसी-725895एफ), 09.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी भुशान (6926563वाई अब जेसी-725896के), 23.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी कुंजाप्पा जे एम (6926720ए अब जेसी-725897एम), 01.11.2002

हवलदार क्लर्क जी डी ब्रह्म प्रकाश (6927135एम अब जेसी-725898पी), 19.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी बहादुर सिंह कंवर (6927576एच अब जेसी-725899एक्स), 01.11.2002*

हवलदार क्लर्क एसकेटी एमटी रमेश कुमार (6927327के अब जेसी-725900एफ), 07.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एसकेटी सिगनल कन्हैया सिंह (6919809के अब जेसी-725901के), 24.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी।)

हवलदार क्लर्क एसकेटी वेपन राजेन्द्र सिंह (6919942एम अब जेसी-725902एम), 10.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एसकेटी वेपन मोहेन्द्र नाथ बेहरा (6919947एल अब जेसी-725903पी), 01.10.2002

हवलदार क्लर्क एसकेटी वेपन उदयवीर सिंह मलीक (6919949डब्ल्यू अब जेसी-725904एक्स), 10.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचटी शामिल चंद्रसरकार (6912812एफ अब जेसी-725905ए), 04.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार पेन्टर (युनीट) राजेन्द्र शर्मा (6914999एक्स अब जेसी-725906एच), 26.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राजेश कुमार (6928158ए अब जेसी-725907एल), 07.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल संतोष कुमार पांडे (6928180एल अब जेसी-725908एन), 14.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन कृष्ण बहादुर सिंह (6919943पी अब जेसी-725909डब्ल्यू), 24.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी जीएस एन्ड सी सुलतान सिंह (6926349डब्ल्यू अब जेसी-725910एल), 01.10.2002*

हवलदार क्लर्क जी डी सफीउल्ला बेग टी आर (6926027डब्ल्यू अब जेसी-725911एन), 01.10.2002*

हवलदार क्लर्क जी डी पुरषोत्तम चन्द (6926545डब्ल्यू अब जेसी-725912डब्ल्यू), 28.11.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी सिगनल इंदर पालि (6919955के अब जेसी-725913वाई), 17.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा (6927794एफ अब जेसी-725914एफ), 01.12.2002

हवलदार क्लर्क जी डी महेन्द्र सिंह (6927813एफ अब जेसी-725915के), 24.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी रवि कान्त (6928355एच अब जेसी-725916एम), 01.12.2002

हवलदार क्लर्क जी डी सथीयन टी (6928395के अब जेसी-725917पी), 01.12.2002

हवलदार क्लर्क जी डी देबरथ देब (6928436एच अब जेसी-725918एक्स), 01.12.2002

हवलदार क्लर्क जी डी सेवा सिंह (6915092डब्ल्यू अब जेसी-725919ए), 01.12.2002

हवलदार क्लर्क जी डी जय मंगल सिंह (6915414एल अब जेसी-725920पी), 01.12.2002

हवलदार एसकेटी एम टी लालजी राय (6915728एन अब जेसी-725921एक्स), 01.12.2002

हवलदार एसएचजीडी हेनरी कोन्डलना (6912478एल अब जेसी-725922ए), 11.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी राजेन्द्र प्रसाद सिंह (6912928वाई अब जेसी-725923एच), 08.12.2002

हवलदार एसएचजीडी प्रताप सिंह (6913057पी अब जेसी-725924एल), 18.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार इंडाइवर एम टी रमेश सिंह (6913193एल अब जेसी-725925एन), 18.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी रामायन शर्मा (6916955वाई अब जेसी-725926डब्ल्यू), 01.01.2003

हवलदार क्लर्क जी डी म्याथु पी पी (6915888वाई अब जेसी-725927वाई), 01.01.2003

हवलदार क्लर्क जी डी सेनुदीन के (6925978एफ अब जेसी-725928एफ), 01.01.2003

हवलदार क्लर्क जी डी अनिल कुमार एस (6926516एफ अब जेसी-725929के), 30.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी मुरली धरन के (6928469एन अब जेसी-725930वाई), 06.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एमटी रमेश कुमार (6916800के अब जेसी-725931एफ), 03.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी सिगनल अशोक कुमार (6919956एम अब जेसी-725932के), 23.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचटी नगेन्द्र नाथ रॉय (6912810डब्ल्यू अब जेसी-725933एम), 15.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एमटी राम जानम राम (6916972वाई अब जेसी-725934पी), 31.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एस एच टी शिव नारायन (6912677वाई अब जेसी-725935वाई), 01.10.2002

हवलदार क्लर्क जी डी सरत कुमार मिश्रा (6913110पी अब जेसी-725936ए), 01.01.2003

हवलदार क्लर्क जी डी निमय मुरमु (6916124ए अब जेसी-725937एच), 02.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी नरेन्द्र सिंह (6916784एक्स अब जेसी-725938एल), 01.01.2003

हवलदार क्लर्क जी डी संजीव पी (6926541ए अब जेसी-725939एन), 01.01.2003

हवलदार एसएच जी डी अनिल कुमार के (6930963एच अब जेसी-725940एच), 10.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी परस हंस राम (6911849डब्ल्यू अब जेसी-725941एल), 11.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी अदापा व्यंकटेश गीरी-राव (6912821एच अब जेसी-725942एन), 21.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी कुल बहादुर छत्री (6913039एम अब जेसी-725943डब्ल्यू), 21.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी संत राम (6913096एन अब जेसी-725944वाई), 19.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी शेख कासीम पेरा (6913075एक्स अब जेसी-725945एफ), 15.12.2002

हवलदार एसएच जी डी बलवदर सिंह (6913253पी अब जेसी-725946के), 15.12.2002

हवलदार एसएच जी डी राजकुमार (6913329के अब जेसी-725947एम), 15.12.2002

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन सुरिन्दर सिंह (6916602वाई अब जेसी-725949एक्स), 20.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी सिगनल ओम प्रकाश (6919967वाई अब जेसी-725948पी), 01.01.2003

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन वकील पोद्दार (6927728वाई अब जेसी-725950एम), 26.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन टी के घोष (6927788एन अब जेसी-725951पी), 22.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन आर सी पांडा (6927768ए अब जेसी-725952एक्स), 08.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन हर गोविन्द सिंह (6926293पी अब जेसी-725953ए), 16.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन बी के बिसवास (6927698एम अब जेसी-725954एच), 24.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन आर के पाठक (6923319एन अब जेसी-725955एल), 20.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन आर के पत्रा (6927812वाई अब जेसी-725956एन), 22.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन फुल कुमार (6927910वाई अब जेसी-725957डब्ल्यू), 19.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन ए के ठाकुर (6924844डब्ल्यू अब जेसी-725958वाई), 01.01.2003*

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन आर के पांडे (6925116एच अब जेसी-725959एफ), 22.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी रोशन लाल (6915194एम अब जेसी-725960डब्ल्यू), 01.01.2003

हवलदार क्लर्क जी डी प्रमोद राय (6915653ए अब जेसी-725961वाई), 01.01.2003

हवलदार क्लर्क जी डी के पी त्रिपाठी (6917166वाई अब जेसी-725962एफ), 01.02.2003

हवलदार एसकेटी सिगनल छद्मी लाल (6919960पी अब जेसी-725963के), 30.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी जीएस एन्ड सी टी एस रावत (6919878ए अब जेसी-725964एम), 01.01.2003

हवलदार एसकेटी इंजीनियर प्रकाश सिंह (6919991पी अब जेसी-725965पी), 01.02.2003

हवलदार ड्राइवर स्पेशल सी एस प्रसाद (6912537एम अब जेसी-725966एक्स), 08.12.2002

हवलदार ड्राइवर स्पेशल ए आर बिसवास (6912587एक्स अब जेसी-725967ए), 22.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर स्पेशल निरंजन लाल (6912581डब्ल्यू अब जेसी-725968एच), 12.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर एम टी प्रदीप सेकीया (6912685के अब जेसी-725969एल), 22.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर एम टी जे एस राना (6912950एच अब जेसी-725970ए), 01.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर स्पेशल बी एल शर्मा (6912956के अब जेसी-725971एच), 15.12.2002

हवलदार ड्राइवर एम टी एस पी सिंह (6912719ए अब जेसी-725972एल), 22.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर एम टी राजबीर उपाध्याय (6911045एफ अब जेसी-725973एन), 16.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर स्पेशल लक्ष्मण सिंह (6913101एन अब जेसी-725974डब्ल्यू), 18.12.2002*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर एम टी कमतानु गबरीयाल (6913207ए अब जेसी-725975वाई), 20.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एस एच टी श्रीकान्त चौधरी (6912895एक्स अब जेसी-725976एफ), 01.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी जनक सिंह (6913252एम अब जेसी-725977के), 22.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसजीडी राम कृपाल चौधरी (6912548वाई अब जेसी-725978एम), 08.12.2002

हवलदार एसएच जी डी राजेंद्र गुप्ता (6911109एफ अब जेसी-725979पी), 28.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एस जी डी सुरेंद्र सिंह (6912549एफ अब जेसी-725980के), 23.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी प्रेम पाल सिंह (6912988एम अब जेसी-725981एम), 10.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी विवेकानन्द चन्द्र (6913092एक्स अब जेसी-725982पी), 23.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी जय करन पाल (6913113एच अब जेसी-725983एक्स), 23.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी लव प्रसाद पाल (6913185एम अब जेसी-725984ए), 20.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी राम रूप राम (6912504एफ अब जेसी-725985एच), 24.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी गोविंद राम (6913251के अब जेसी-725986एल), 20.12.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी प्रकाश सिंह (6913255ए अब जेसी-725987एन), 18.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी नेत्र प्रकाश (6913256एम अब जेसी-725988डब्ल्यू), 21.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी मनोहर सिंह (6913334पी अब जेसी-725989वाई), 19.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएच जी डी सुरत सिंह (6913344पी अब जेसी-725990एन), 10.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अभुनिशन तकनिशियन शिव प्रसाद दास (6927837एल अब जेसी-725991डब्ल्यू), 28.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल रा स्वरूप यादव (6928112एक्स अब जेसी-725992वाई), 01.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस प्रोविजन हारविन्दर सिंह (6917432एम अब जेसी-725993एफ), 04.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल दिनेश कुमार (6917531पी अब जेसी-725994के), 03.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी कुलविन्दर सिंह राना (6927657एच अब जेसी-725995एम), 01.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी बिरेन्द्र सिंह यादव (6928345वाई अब जेसी-725996पी), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क जी डी राजेश्वर राय (6928464पी अब जेसी-725997एक्स), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क जी डी अविनाश चन्द्र (6915739वाई अब जेसी-725998ए), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क जी डी केशव प्रसाद (6916480ए अब जेसी-725999एच), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क जी डी किल्लारी संपथी राव (6917007एफ अब जेसी-726000के), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल महेन्द्र गोरी (6917542एक्स अब जेसी-726001एम), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बलवन्त सिंह (6917544एच अब जेसी-726002पी), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल रंजीत सिंह (6917549एफ अब जेसी-726003एक्स), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल कुलविन्दर सिंह (6917550ए अब जेसी-726004ए), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अजयवीर दुबे (6917551वाई अब जेसी-726005एच), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल शुक्ला उमा शंकर (6917562एल अब जेसी-726006एल), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क जी डी यशपाल सिंह (6928336एक्स अब जेसी-726007एन), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राजेश कुमार (6917569पी अब जेसी-726008डब्ल्यू), 01.02.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल हारी राम अहिर (6917564डब्ल्यू अब जेसी-726009वाई), 01.02.2003

हवलदार एसकेटी वेपन संजय कुमार परीदा (6919939एम अब जेसी-726010एन), 19.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी सिगनल श्री कृष्णा (6919958एक्स अब जेसी-726011डब्ल्यू), 30.12.2002 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी अनुमिश्रण अशोक कुमार नन्दी (6915699डब्ल्यू अब जेसी-726012वाई), 29.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी सिगनल सुरेश कुमार मेहरा (6919976ए अब जेसी-726013एफ), 01.02.2003

हवलदार एसकेटी सिगनल हिम बहादुर भंडारी (6919977एच अब जेसी-726014के), 04.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एम टी कमल कान्त सामल (6919980एच अब जेसी-726015एम), 03.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी इंजीनियर मोहन सिंह (6919990एम अब जेसी-726016एफ), 18.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी इंजीनियर दीवान सिंह (6919992एक्स अब जेसी-726017एक्स), 01.02.2003

हवलदार एसकेटी सिगनल प्रभाकर तिवारी (6919966डब्ल्यू अब जेसी-726018डब्ल्यू), 17.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी इंजीनियर मधुकर सिंह (6919996एन अब जेसी-726019एच), 13.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी इंजीनियर जगदीश सिंह (6919997डब्ल्यू अब जेसी-726020एक्स), 15.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी सिगनल सुरेश शर्मा (6919974पी अब जेसी-726021ए), 20.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर एम टी चंदगी राम (6912778एम अब जेसी-726022एच), 26.01.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राइवर एम टी लखीत गोहैन (6913017एन अब जेसी-726023एल), 15.12.2002

हवलदार ड्राइवर एम टी रनबीर चंद (6913308एन अब जेसी-726024एन), 01.02.2003

हवलदार टैलर (युनीट) जुमना राम चौधरी (6917904एक्स अब जेसी-726025एक्स), 01.02.2003

हवलदार एस एच टी रत्न कान्त हाजारीका (6913020एन अब जेसी-726026वाई), 01.04.2003

हवलदार एसएचजीडी अबदेश द्विवेदी (6913102डब्ल्यू अब जेसी-726027एफ), 08.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी चरन दास (6913243एल अब जेसी-726028के), 05.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी सुरेश कुमार (6913472डब्ल्यू अब जेसी-726029एम), 01.02.2003

हवलदार एसएचजीडी रंजीत सिंह (6913348पी अब जेसी-726030एफ), 04.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी सत्यदेव दीक्षीत (6913353ए अब जेसी-726031के), 01.02.2003

हवलदार एसएचजीडी भजन सिंह (6913363के अब जेसी-726032एम), 07.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी मोहमोदीन अन्सारी (6912939के अब जेसी-726033पी), 27.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी ससीधरन पी (6913162एल अब जेसी-726034एक्स), 03.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी निरंजन मिश्रा (6913542के अब जेसी-726035ए), 15.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी इंजीनियर लाखन सिंह (6919788वाई अब जेसी-726036एच), 26.09.2002

हवलदार एसकेटी वेपन बसंत कुमार जेना (6919950एल अब जेसी-726037एल), 16.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल सुधाकर साहु (6917546एन अब जेसी-726038एन), 11.04.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल राजपाल सिंह (6917548एच अब जेसी-726039डब्ल्यू), 10.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल लांडगे रोहीदास कुशाबा (6917552एफ अब जेसी-726040एल), 18.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी लाखन सिंह (6912486के अब जेसी-726041एन), 29.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी कर्नैह कुमार (6913015एच अब जेसी-726042डब्ल्यू), 14.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी भोला साहु (6913177वाई अब जेसी-726043वाई), 27.01.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन मुल चंद (6914117एल अब जेसी-726044एफ), 19.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एम टी प्रल्हाद लेनका (6919626एन अब जेसी-726045के), 04.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एम टी हुकम सिंह (6919742डब्ल्यू अब जेसी-726046एम), 01.01.2003

हवलदार एसकेटी अमृनिशन विरेन्द्र सिंह रावत (6919877एक्स अब जेसी-726047पी), 03.02.2003*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन मोहम्मद ओहिया (6919884एन अब जेसी-726048एक्स), 01.02.2003

हवलदार एसकेटी एमटी सुभाष बाबु दिक्षीत (6919962ए अब जेसी-726049ए), 01.01.2003

हवलदार एसकेटी सिगनल सुख चरन (6919971एफ अब जेसी-726050पी), 01.02.2003

हवलदार एसकेटी सिगनल राजेन्द्र सिंह (6919975एक्स अब जेसी-726051एक्स), 01.02.2003

हवलदार एसकेटी एम टी आनंद सिंह (6919995एल अब जेसी-726052ए), 19.02.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचटी सुभाष चन्दर (6913095एल अब जेसी-726053एच), 01.01.2003

हवलदार पेंटर (युनीट) विजय बहादुर सिंह (6916671पी अब जेसी-726054एल), 01.02.2003

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन एस सुन्दा राजन (6922884वाई अब जेसी-726055एन), 01.01.2003

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन पी के महापात्रा (6927840एल अब जेसी-726056डब्ल्यू), 01.01.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल जसविन्दर सिंह (6917492एफ अब जेसी-726057वाई), 01.02.2003

हवलदार एसकेटी एमटी रमेश चन्द्र साहु (6919617एम अब जेसी-726058एफ), 01.02.2003

हवलदार टेक्सटाईल रिपेअर अमर सिंह (6912519के अब जेसी-726059के), 23.03.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन प्रबोध कुमार नायक (6923351एच अब जेसी-726060वाई), 31.03.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन प्रमोद कुमार (6924371एच अब जेसी-726061एफ), 01.04.2003

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन भुप सिंह (6925005एल अब जेसी-726062के), 18.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन रहीम अहमद (6927750के अब जेसी-726063एम), 01.03.2003

हवलदार अमुनिशन तकनिशियन रजनी कान्त बोरा (6927908एफ अब जेसी-726064पी), 28.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल रवि लाल (6917515एक्स अब जेसी-726065एक्स), 01.04.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल प्रितम चंद कटोच (6917520एच अब जेसी-726066ए), 20.03.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल बाशंवर सिंह (6917570के अब जेसी-726067एच), 04.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल संपूर्ण सिंह (6917572पी अब जेसी-726068एल), 01.03.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल बलवान सिंह (6917576एल अब जेसी-726069एन), 01.03.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल मलकीयत सिंह (6917583डब्ल्यू अब जेसी-726070एच), 01.03.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल रतन चन्द (6917592एच अब जेसी-726071एल), 15.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल जरनेल सिंह (6917595पी अब जेसी-726072एन), 01.03.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल रबिन्द्र सिंह (6917605एच अब जेसी-726073डब्ल्यू), 01.03.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल जगमोहन (6917610एच अब जेसी-726074वाई), 01.04.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल राजेन्द्र सिंह (6917640एफ अब जेसी-726075एफ), 20.03.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल ओम पाल सिंह (6917642एम अब जेसी-726076के), 01.04.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल मुल राज भगत (6917644एक्स अब जेसी-726077एम), 01.03.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल विनोद टोपनो (6917645ए अब जेसी-726078ए), 10.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल अशोक कुमार (6917646एच अब जेसी-726079एक्स), 01.04.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्दोल रघुपाल सिंह (6917647एल अब जेसी-726080एम), 07.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सुभाष चन्द कौडल (6917648 एन अब जेसी-726081 पी), 01.04.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल प्रेम प्रकाश (6917649 डब्ल्यू अब जेसी 726082 एक्स) 01.04.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सुखदेव सिंह संधु (6917652 डब्ल्यू अब जेसी 726083 ए) 25.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी जीस एन्ड सी अभय कुमार (6916408 के अब जेसी 726084 एच) 01.04.2003

हवलदार एसकेटी जीस एन्ड सी अखिलेश कुमार (6916977 के अब जेसी 726085 एल) 04.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन पी सी यादव (6919354 वाई अब जेसी 726086 एन) 01.04.2003

हवलदार एसकेटी सिगनल मारकन्डा बेहरा (6919946 एच अब जेसी 726087 डब्ल्यू) 30.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एम टी राजन टी पी (6919850 ए अब जेसी 726088 वाई) 01.04.2003

हवलदार एसकेटी एम टी किशोर चन्द्र राजू (6919945 ए अब जेसी 726089 एफ) 08.05.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी इंजीनियर सतीश कुमार (6919999 एफ अब जेसी 726090 डब्ल्यू) 15.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी इंजीनियर बसंत कुमार (6920015 एल अब जेसी 726091 वाई) 10.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी वेपन अनुप सिंह (6920030 ए अब जेसी 726092 एफ) 27.03.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी एम टी हाजारी लाल बी (6920033 एन अब जेसी 726093 एन) 21.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी अमुनिशन अभय सिंह (6920035 वाई अब जेसी 726094 वाई) 17.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसकेटी अमुनिशन राम अवतार सिंह (6920041 एम अब जेसी 726095 पी) 05.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचटी रामवीर सिंह (6911350 एन अब जेसी 726096 एक्स) 17.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचटी रुतु राम (6913322 ए अब जेसी 726097 ए) 01.03.2003

हवलदार एसएचजीडी रतन सिंह (6913246 वाई जेसी 726098 एच) 19.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार ड्राईवर स्पेशल सुभाष चन्द (6913313 वाई अब जेसी 726099 एल) 05.04.2003

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार अमुनिशन तकनीशन प्रताप सिंह (6923298 एच अब जेसी 726100 पी) 28.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल प्रभ चन्द विशोदिया (6917635 डब्ल्यू अब जेसी 726101 एक्स) 05.05.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल शिव कुमार (6917653 वाई अब जेसी 726102 ए) 01.04.2003

हवलदार एसकेटी इंजीनियर विजयन के (6919854 डब्ल्यू अब जेसी 726103 एच) 01.04.2003

हवलदार एसकेटी वेपन राम प्यारे सिंह यादव (6919889 एम अब जेसी 726104 एल) 01.04.2003

हवलदार एसएचजीडी प्रेम चन्द (6911810 के अब जेसी 726105 एन) 01.03.2003

हवलदार एसएचजीडी राम दवार यादव (6912901 ए अब जेसी 726106 डब्ल्यू) 13.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार एसएचजीडी दीपक लिंबु (6913036 वाई अब जेसी 726107 वाई) 26.03.2003

हवलदार एसएचजीडी कुलकर्णी सचिन कमलाकर (6929543 डब्ल्यू अब जेसी 726108 एफ) 14.04.2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी)

हवलदार क्लर्क जी डी रविन्द्र कुमार मंडल (6914204 वाई अब जेसी 726109 के) 01.05.2003

हवलदार क्लर्क एस कन्ट्रोल विश्वनाथ प्रसाद (6917660 पी अब जेसी 726110 वाई) 01.05.2003

हवलदार क्लर्क जी डी मगन देव ठाकुर (6914903 के अब जेसी 726111 एफ) 01.05.2002

सेना आयुध कोर

सूबेदार मेजर धर्म गुरू (पंडित)

सूबेदार मेजर धर्म गुरू (पंडित) पंचानन मिश्रा (जेसी 84855 एल)
06.11.2002 *

*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी।

सेना आयुध कोर

सूबेदार मेजर धर्म गुरू (पंडित)

सूबेदार धर्म गुरू (पंडित) गोविंद प्रसाद पाठक (जेसी 722009 एफ)
04.12.2002 *

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
नवम्बर 2002 से दी जायेगी।

सूबेदार धर्म गुरू (पंडित) मृत्युंजय प्रसाद शुक्ला (जेसी 722010 डब्ल्यू)
02.12.2002 *

*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
नवम्बर 2002 से दी जायेगी।

नियमित सेना

विशेष सूची

सेना आयुध कोर

नायब सूबेदार धर्म गुरू

जेसी एन वाई ए नायब सूबेदार धर्म गुरू (पंडित) अजय सलील
पोखरीयाल (अब जेसी 725876 डब्ल्यू) 25.09.2002

एस. के. खुराना
अवर सचिव

सं. 547, दिनांक 26 अगस्त 2003--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एएमसी
अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर के पद पर

आलोक सोबती (एमआर-07115डब्ल्यू), एएमसी, 20 जनवरी 2003।
श्रीतिवास एस (एमएस-14073एक्स) (एमआर-07841एल), एएमसी,
27 जनवरी 2003।

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

यशवीर सिंह दहिया (एमएस-13599एक्स) (एमआर-
07835एक्स)(25551), एएमसी, 15 जनवरी 2003।

एम. श्रीवास्तवा
बिग्रेडियर

डि. डीजीएफएमएस(पी)

नौसेना ब्रांच

सं. 548, दिनांक 25 अगस्त 2003--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं:--

भारतीय नौसेना

लेफ्टिनेंट कमांडर (एसडी) से कमांडर (एसडी) टर्नम स्केल

लाल चन्द (80105एफ), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
जगरूप सिंह (81949वाई), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
एम आर मारीपनवर (83936एन), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
पी पी सिंह (89058बी), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
बी एस पिल्लैई (86033बी), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
आर वी सिंह (86344के), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
एस के सूद (86869बी), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।

लेफ्टिनेंट (एस डी) से लेफ्टिनेंट कमांडर (एस डी)

टी सिंह (81306के), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
गुरुशरण (82012आर), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
टी डी (82013टी), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
एम ए राठौर (82014डब्ल्यू), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
एस कुमार (83968के), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
के सिंह (83969एन), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
बेली राम (84615एफ), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
राम कनवर (84616एच), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
के मैसी (83213टी), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
पी सी द्विवेदी (83213डब्ल्यू), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
बी लाल (88598एच), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
एच एस प्रकाशा (89104एच), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
ए एन पी सिंह (89105के), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
पी के शर्मा (89106एन), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
आर पी यादव (89107आर), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
एन के त्रिपाठी (85096जेड), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
एम सिंह (85096जेड), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
टी आर निशिष्ठ (86900जेड), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
जे एस यादव (86901ए), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
वी एम त्यागी (87608एच), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
बी एम जार्ज (88120वाई), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
आर सी दास (88121जेड), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
पूरन चन्द (89764एच), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
जे एस सिंह (89766एन), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।

जी सी राय (85099एफ), 01 अक्टूबर 2001 से पदोन्नत (आर्थिक
उद्देश्य के लिए पूर्व दिनआंकित वरीयता 01 अप्रैल 2001)।

हरष कुमार (85100एच), 01 अक्टूबर 2001 से पदोन्नत (आर्थिक
उद्देश्य के लिए पूर्व दिनआंकित वरीयता 01 अप्रैल 2001)।

लेफ्टिनेंट कमांडर (एस डी) से कमांडर (एस डी) टाईम स्केल
 एम बोडाके (81291ए), 01 अप्रैल 2001।
 जी जे वदुकूत (81959डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2001।
 धरम वीर (81963बी), 01 अप्रैल 2001।
 अब्दुल वाहिद (85084वाई), 01 अप्रैल 2001।
 एम रविंद्रन (86035एच), 01 अप्रैल 2001।
 बी के सिंह (86346आर), 01 अप्रैल 2001।
 जे के नीलकंठा (87568टी), 01 अप्रैल 2001।
 रिशी राम (87569डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2001।
 ईश्वर सिंह (87570वाई), 01 अप्रैल 2001।

लेफ्टिनेंट (एस डी) से लेफ्टिनेंट कमांडर (एस डी)

एम एन घोष (80146जेड), 01 अप्रैल 2001।
 आर पी मोहातो (81307एन), 01 अप्रैल 2001।
 डी सिंह (83972डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2001।
 एस के सिंह (88599के), 01 अप्रैल 2001।
 के एन नाथन (89110वाई), 01 अप्रैल 2001।
 के एस अंबरियाण (86058के), 01 अप्रैल 2001।
 एस वी एस मूर्ति (86059एन), 01 अप्रैल 2001।
 अब्रहाम राय (86358टी), 01 अप्रैल 2001।
 ओम प्रकाश (87610एन), 01 अप्रैल 2001।
 ऐ आर राउत (88326आर), 01 अप्रैल 2001।
 टी डी थोमस (83973वाई), 01 अप्रैल 2001।

सब लेफ्टिनेंट (एस डी) से लेफ्टिनेंट (एस डी)

के के क्षीरसागर (86370के), 01 अप्रैल 2001।
 एम के शर्मा (87625वाई), 01 अप्रैल 2001।
 एस के मलिक (88612आर), 01 अप्रैल 2001।
 सतीश कुमार (89133जेड), 01 अप्रैल 2001।
 के शर्मा (89780डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2001।

एक्टिंग कमांडर/कमांडर (एस डी) (टाईम स्केल) से सबस्टेन्टिव पद
 कमांडर (एस डी)

वी एम फिलिप (89048एफ), 01 अक्टूबर 2001।
 बी एस पिल्लई (86033बी), 01 अक्टूबर 2001।
 एस टी पेरुमल (81962ए), 01 अक्टूबर 2001।
 कशमीर सिंह (89740बी), 01 अक्टूबर 2001।
 लेफ्टिनेंट कमांडर (एस डी) से कमांडर (एस डी) (टाईम स्केल)
 सी मेगानाथन (81292बी), 01 अक्टूबर 2001।
 के पी मेथ्यू (81293एफ), 01 अक्टूबर 2001।
 माखन सिंह (81294एच), 01 अक्टूबर 2001।

ए एस सियांन (81296एन), 01 अक्टूबर 2001।
 ए एस जेवियर (85085जेड), 01 अक्टूबर 2001।
 पंपापती (86347टी), 01 अक्टूबर 2001।
 बी एस नारंग (87572ए), 01 अक्टूबर 2001।
 पी टी जोन (88317डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2001।
 जी डी सचदेवा (86874आर), 01 जनवरी 2002।

लेफ्टिनेंट (एस डी) से लेफ्टिनेंट कमांडर (एस डी)

के के मानपुरे (81308आर), 01 अक्टूबर 2001।
 एस के राना (84618एन), 01 अक्टूबर 2001।
 जी एस प्रकाश बाबु (89111जेड), 01 अक्टूबर 2001।
 के जी थोमस (87611आर), 01 अक्टूबर 2001।
 एम डी बी कुमार (88327-टी) 01 अक्टूबर 2001।
 एस जी कुमार (89768टी), 01 अक्टूबर 2001।

सब लेफ्टिनेंट (एस डी) से लेफ्टिनेंट (एस डी)

के सी रत्ता (81593एन), 01 अक्टूबर 2001।
 जे एस दुनिया (89134ए), 01 अक्टूबर 2001।
 डी एस यादव (85111एच), 01 अक्टूबर 2001।
 एस के सिंह (86068एच), 01 अक्टूबर 2001।
 राजेंद्र कुमार (87626जेड), 01 अक्टूबर 2001।
 जे एन राय (88127एन), 01 अक्टूबर 2001।

लेफ्टिनेंट कमांडर (एस डी) से कमांडर (एस डी) टाईम स्केल

पी के सरकार (80114एफ), 01 अक्टूबर 2000।
 के पी आर पिस्तै (81953एफ), 01 अक्टूबर 2000।
 वारीन्दर इक्वाल (89061के), 01 अक्टूबर 2000।
 बी डी यादव (85082टी), 01 अक्टूबर 2000।
 राम मेहर (87566एन), 01 अक्टूबर 2000।
 ए बी चाल्के (81956एन), 01 अक्टूबर 2000।

लेफ्टिनेंट (एस डी) से लेफ्टिनेंट (एस डी)

सत्य वीर सिंह (83966एफ), 14 जनवरी 2000/01 अप्रैल 2000।
 प्रवीन कुमार (82021के), 01 अक्टूबर 2000।
 ए बी सिवेस्टियन (83971टी), 01 अक्टूबर 2000।
 पुरोषोत्तम सिंह (84617के), 01 अक्टूबर 2000।
 सतीश कुमार (85098बी), 01 अक्टूबर 2000।
 नरेश कुमार (86057एच), 01 अक्टूबर 2000।
 बलबीर सिंह (86904एच), 01 अक्टूबर 2000।
 के एल वर्मा (89767आर), 01 अक्टूबर 2000।

लेफ्टिनेंट कमांडर से कमांडर टाईम स्केल

एस मनीकोटिया (02128के), 01 जुलाई 2000।

एस एन मोहन्ती (02130आर), 01 जुलाई 2000।	जेवियर पी रॉकी (01987आर), 01 जनवरी 2000।
जी मोहन (02131टी), 01 जुलाई 2000।	सुधाकर पटनायक (01966टी), 01 जनवरी 2000।
यू ए कैसार (02117के), 01 जुलाई 2000।	अरविन्द कुमार (01957वाई), 01 जनवरी 2000।
एस बी गौर (02112जेड), 01 जुलाई 2000।	सुभाष सैमुअल (01974के), 01 जनवरी 2000।
ए एस बाथ (02106के), 01 जुलाई 2000।	एस एस यादव (01988टी), 01 जनवरी 2000।
जी एस मेहता (02132डब्ल्यू), 01 जुलाई 2000।	अरूप चटर्जी (01947जेड), 01 जनवरी 2000।
के मुरलीधरन (02134जेड), 01 जुलाई 2000।	डामेन जॉन (01956डब्ल्यू), 01 जनवरी 2000।
अनिल शर्मा (02154डब्ल्यू), 01 जुलाई 2000।	केबी एम सीही (02029के), 14 जनवरी 2000।
आर के अग्रवाल (02103बी), 01 जुलाई 2000।	आर के श्रीवास्तव (02039एच), 14 जनवरी 2000।
एस एस सिद्धू (02161के), 01 जुलाई 2000।	यु सी बारूआ (01993बी), 14 जनवरी 2000।
पी के रंगनाथन (02143डब्ल्यू), 01 जुलाई 2000।	पी एस राणा (01972एफ), 14 जनवरी 2000।
पी एम लॉथ (02125बी), 01 जुलाई 2000।	जे जे पुथुर (02074एन), 14 जनवरी 2000।
जे मोसस (02127एच), 01 जुलाई 2000।	राजीव शर्मा (02080ए), 14 जनवरी 2000।
एस के श्रीवास्तव (02160एच), 01 जुलाई 2000।	ललित कुमार (02056वाई), 14 जनवरी 2000।
पी रवि (02148एफ), 01 जुलाई 2000।	एच एस राय (02073के), 14 जनवरी 2000।
एस के जॉन (40843जेड), 01 जुलाई 2000।	एम के सुब्रामण्यम (02077डब्ल्यू), 14 जनवरी 2000।
आई पी सिंह (50699जेड), 01 जुलाई 2000।	सीकर सुब्रामण्यम (02085एन), 14 जनवरी 2000।
जी एस रैत (01970ए), 01 जुलाई 2000।	राजीव खन्डूरी (02097आर), 14 जनवरी 2000।
आई अरवानन (40860एन), 4 अगस्त 2000।	मधुकर जोशी (02053आर), 14 जनवरी 2000।
पी एस जोसान (40822एन), 18 अगस्त 2000।	वी कृष्णन (02059बी), 14 जनवरी 2000।
डी बी सी जांबेरकर (40858एच), 4 अगस्त 2000।	अरुण कुमार वर्मा (02092वी), 14 जनवरी 2000।
डी भार्गवा (40860वाई), 5 अगस्त 2000।	राकेश कुमार (02057जेड), 14 जनवरी 2000।
एस एम यूसूफ (40863डब्ल्यू), 4 अगस्त 2000।	टी वी ठक्कर (02090जेड), 14 जनवरी 2000।
एस यू एम राव (40861आर), 4 अगस्त 2000।	एच एम आर आर्चया (02044डब्ल्यू), 14 जनवरी 2000।
ए एस प्रकाश (50726के), 31 अगस्त 2000।	ए आर गौवनकर (02050एच), 14 जनवरी 2000।
डी आर शर्मा (50719डब्ल्यू), 4 अगस्त 2000।	एस एस धाटे (40781एच), 14 जनवरी 2000।
पी एस मल्हापन (50723बी), 21 अगस्त 2000।	बी के शर्मा (40803), 14 जनवरी 2000।
आर बी मोहन (02135ए), 1 सितम्बर 2000।	आइजी सुरेश कुमार (40820वाई), 14 जनवरी 2000।
पी के मित्रा (50720वाई), 4 अगस्त 2000।	एल पुरुषोत्तमन (40819डब्ल्यू), 14 जनवरी 2000।
एस मुखर्जी (50721जेड), 10 अगस्त 2000।	ए के शर्मा (40802एफ), 14 जनवरी 2000।
एन श्रीकांत (50725एच), 29 अगस्त 2000।	पी एन राव (40799जेड), 14 जनवरी 2000।
ए पटनायक (50724एफ), 24 अगस्त 2000।	एन मोहम्मद हनीफ (40816एन), 14 जनवरी 2000।
के एम देसाई (01950एफ), 01 जनवरी 2000।	सुधीर कुमार दुआ (40788जेड), 14 जनवरी 2000।
	एस बी शकपाल (40813एफ), 14 जनवरी 2000।
	के एल नरसिम्हा (40811ए), 14 जनवरी 2000।

- टी आर मैथ्यू (40794एन), 14 जनवरी 2000।
 आलोक मोहन (40814एच), 14 जनवरी 2000।
 भरत चौहान (40824एफ), 14 जनवरी 2000।
 के सुनीलशा (40830डब्ल्यू), 14 जनवरी 2000।
 ए के नामदेव (40833ए), 14 जनवरी 2000।
 ए एन एन स्वामी (40835एफ), 14 जनवरी 2000।
 राजीव नायर (50651आर), 14 जनवरी 2000।
 एम ए के जेलानी (50660के), 14 जनवरी 2000।
 ए के सक्सेना (50674टी), 14 जनवरी 2000।
 एन डी राव (50673आर), 14 जनवरी 2000।
 टी बी रंगाचारी (50675डब्ल्यू), 14 जनवरी 2000।
 जे टी राय (50683एन), 14 जनवरी 2000।
 पी के राउतराय (50685टी), 14 जनवरी 2000।
 शंकर सिंह (50690बी), 14 जनवरी 2000।
 जी सी नायक (50686डब्ल्यू), 14 जनवरी 2000।
 टी पी वरकी (50689ए), 14 जनवरी 2000।
 एच सी ध्यानी (70224जेड), 14 जनवरी 2000।
 एम एस राव (70228एच), 14 जनवरी 2000।
 पी बादला (02099डब्ल्यू), 11 फरवरी 2000।
 बी एल अग्रवाल (40838एन), 11 फरवरी 2000।
 एस के दत्ता (40839आर), 11 फरवरी 2000।
 एस जी कार्वे (02055डब्ल्यू), 01 मई 2000।
 दिलीप कुमार चौधरी (02174आर), 01 जुलाई 2000।
 ए के पिल्लै (02215एच), 01 जनवरी 2001।
 एस एस आर नारोनकर (40956एफ), 28 जनवरी 2001।
 पियूष पाण्डेय (50734बी), 01 जनवरी 2001।
 वी के पन्त (02234ए), 09 फरवरी 2001।
 एन आर सामानेवाडी (40892के), 09 फरवरी 2001।
 एस डी राजकुमार (40893एन), 09 फरवरी 2001।
 एस नागागोडा (40895टी), 22 फरवरी 2001।
 एस प्रकाश (50746एफ), 20 फरवरी 2001।
 ए एन मनी (50744ए), 09 फरवरी 2001।
 पी मिश्रा (70241एन), 22 फरवरी 2001।
 आर वधावन (02246बी), 01 जनवरी 2001।
 सुनील सिन्हा (02229आर), 01 जनवरी 2001।
 आर दत्ता (02179ए), 01 जनवरी 2001।
 सी पी अरोकियासामी (02182एच), 01 जनवरी 2001।
 डी के गुप्ता (02180बी), 01 जनवरी 2001।
 एस जॉन (02219टी), 01 जनवरी 2001।
 वाइ के पारावर (02220डब्ल्यू), 01 जनवरी 2001।
 आइ सी सिंह (02237एच), 01 जनवरी 2001।
 एच सी शर्मा (02235बी), 01 जनवरी 2001।
 वी भाष्कर (02186टी), 01 जनवरी 2001।
 राजीव शर्मा (02250एन), 01 जनवरी 2001।
 ए एन कुमार (02206एन), 01 जनवरी 2001।
 डी एस चिल्लार (02187डब्ल्यू), 01 जनवरी 2001।
 आर श्रीमल (02227के), 01 जनवरी 2001।
 एस सी कुल्हाडी (50733डब्ल्यू), 01 जनवरी 2001।
 जे डब्ल्यू राबर्ट (50736एच), 01 जनवरी 2001।
 एन पाल (70235जेड), 05 जनवरी 2001।
 एस के मिश्रा (70233डब्ल्यू), 05 जनवरी 2001।
 एन श्रीवास्तव (02240आर), 01 जनवरी 2001।
 रवि दीक्षित (02193एच), 01 जनवरी 2001।
 पराग सक्सेना (02228एन), 01 जनवरी 2001।
 अरुण गुप्ता (02197टी), 01 जनवरी 2001।
 राकेश शर्मा (02249के), 01 जनवरी 2001।
 डी सी अग्रवाल (40896डब्ल्यू), 01 जनवरी 2001।
 लेख राज (50740टी), 01 जनवरी 2001।
 ए एस भालेराव (02230टी), 01 जनवरी 2001।
 एस रामनाथन (02222जेड), 01 जनवरी 2001।
 डी एन राय (50765जेड), 30 अगस्त 2001।
 आर के श्रीवास्तव (02284आर), 01 जुलाई 2001।
 ए अनंतनारायणन (02294एन), 01 जुलाई 2001।
 जे पी धितकारा (02264डब्ल्यू), 01 जुलाई 2001।
 ए के आर शर्मा (02281एच), 01 जुलाई 2001।
 आर सिंह (02291एफ), 01 जुलाई 2001।
 पी एस बुगालिसा (02258एफ), 01 जुलाई 2001।
 वी वी एस दत्त (02265वाई), 01 जुलाई 2001।

एस डी सिंह (02285टी), 01 जुलाई 2001।
 एस सरकार (40914के), 01 जुलाई 2001।
 ए मल्होत्रा (50750आर), 01 जुलाई 2001।
 के एन रेड्डी (03020एन), 16 अगस्त 2001।
 के वेलू (40873टी), 04 अगस्त 2001।
 आर कुलकर्णी (40916आर), 17 अगस्त 2001।
 ए मिश्रा (40910ए), 17 अगस्त 2001।
 एम गुता (050801एफ), 2 अगस्त 2002।
 एस अल्वाडी (40994टी), 13 अगस्त 2002।
 सी एम शर्मा (02358एच), 01 जनवरी 2002।
 एस डी सिंह (02357एफ), 01 जनवरी 2002।
 एच के सिन्हा (02339आर), 01 जनवरी 2002।
 गुरमीत सिंह (02349एन), 01 जनवरी 2002।
 जितेन्द्र सिंह (02304के), 01 जनवरी 2002।
 राजेन्द्र कुमार (02354जेड), 01 जनवरी 2002।
 पी दुकनिया (02309वाई), 01 जनवरी 2002।
 जी पी जोसफ (02305एन), 01 जनवरी 2002।
 टी एन पाण्डेय (02301बी), 01 जनवरी 2002।
 अशोक कुमार (02319डब्ल्यू), 01 जनवरी 2002।
 ए के शर्मा (02335एफ), 01 जनवरी 2002।
 एस ठक्कर (02343जेड), 01 जनवरी 2002।
 एस गोहा (02432ए), 01 जनवरी 2002।
 जे एस मलहन (02332जेड), 01 जनवरी 2002।
 जे एस पी चिनसन (02344ए), 01 जनवरी 2002।
 ए साहनी (02340पी), 01 जनवरी 2002।
 एन डास (02351पी), 01 जनवरी 2002।
 डी जय कुमार (02350आर), 01 जनवरी 2002।
 बी पी मिश्रा (02347एच), 01 जनवरी 2002।
 एस एस नारायना (02355ए), 01 जनवरी 2002।
 के सी मिश्रा (40928टी), 01 जनवरी 2002।
 बी सेन (40971आर), 01 जनवरी 2002।
 एस कुमार (50774डब्ल्यू), 01 जनवरी 2002।
 श्रीवास्तव आर (50770के), 01 जनवरी 2002।
 ए दास (50799ए), 01 जनवरी 2002।

बी के नागपाल (50777ए), 01 जनवरी 2002।
 एस शर्मा (50776जेड), 01 जनवरी 2002।
 एस डी शर्मा (50775वाई), 01 जनवरी 2002।
 ए के प्रभाकर (40940डब्ल्यू), 15 फरवरी 2002।
 एस के त्रिवेदी (02437आर), 15 फरवरी 2002।
 बी के शर्मा (40950टी), 03 मई 2002।
 एस जी गजानन (40949आर), 03 मई 2002।
 के के भादुरी (40945एफ), 03 मई 2002।
 ए सेठ (02314एच), 01 जुलाई 2002।
 सुरेन्द्र सिंह (02512एच), 01 जुलाई 2002।
 आर ललहाल (02473डब्ल्यू), 01 जुलाई 2002।
 अनिल कुमार (02469के), 01 जुलाई 2002।
 आर त्यागी (02501एच), 01 जुलाई 2002।
 ओ पी कण्णन (02467एफ), 01 जुलाई 2002।
 एन जे उपाध्याय (02502के), 01 जुलाई 2002।
 आर सिंह (02507वाई), 01 जुलाई 2002।
 डी डी पेंत (02485वाई), 01 जुलाई 2002।
 डी एस सिंह (02495डब्ल्यू), 01 जुलाई 2002।
 एम कुमार (02465ए), 01 जुलाई 2002।
 जी एस भुल्लर (02443ए), 01 जुलाई 2002।
 पी जी यमयावर (02456एफ), 01 जुलाई 2002।
 पी बी आर राव (02489एफ), 01 जुलाई 2002।
 ए के शर्मा (02516टी), 01 जुलाई 2002।
 एच एस ओवेराय (02491एन), 01 जुलाई 2002।
 एम मयंक (02474वाई), 01 जुलाई 2002।
 पी के शर्मा (02515आर), 01 जुलाई 2002।
 जी गंधम (02513के), 01 जुलाई 2002।
 एन आर दिगार्वकर (02452वाई), 01 जुलाई 2002।
 जी जार्ज (02455बी), 01 जुलाई 2002।
 के जे जिबखाते (02460आर), 01 जुलाई 2002।
 बी भारद्वाज (02445एफ), 01 जुलाई 2002।
 के आर एस तोमर (02499बी), 01 जुलाई 2002।
 एस एम एच पीरान (40967एफ), 01 जुलाई 2002।
 आर के धुलीपाला (40982 डब्ल्यू), 01 जुलाई 2002।

पी के सिंकदर (40970एन), 01 जुलाई 2002।
 जे एस धनोवा (40961टी), 01 जुलाई 2002।
 डी जमवाल (40963वाई), 01 जुलाई 2002।
 ए के प्रसाद (50793एन), 01 जुलाई 2002।
 पी सेठ (50798जेड), 01 जुलाई 2002।
 डी चक्रवर्ती (40951डब्ल्यू), 02 अगस्त 2002।
 आर एम हरिते (50800बी), 02 अगस्त 2002।
 एस दीनदयालन (40866ए), 02 अगस्त 2002।
 लेफ्टिनेन्ट कमांडर (एस डी) से कमांडर (एस डी) (यईम स्केल)
 आर आर यादव (80121टी), 01 अप्रैल 2002।
 एल छावरी (81297आर), 01 अप्रैल 2002।
 दरशन लाल (84604एफ), 01 अप्रैल 2002।
 राम चंदर (86039टी), 01 अप्रैल 2002।
 पी एस साफिया (86349वाई), 01 अप्रैल 2002।
 एल बी कारागी (86350जेड), 01 अप्रैल 2002।
 एस पी एस तोमर (80120आर), 01 मई 2002।
 लेफ्टिनेन्ट (एस डी) से लेफ्टिनेन्ट कमांडर (एस डी)
 वाई पाल (81309टी), 01 अप्रैल 2002।
 पी दास (82022एन), 01 अप्रैल 2002।
 डी एस मनहास (82023आर), 01 अप्रैल 2002।
 जे सरोवा (84619आर), 01 अप्रैल 2002।
 वाई के चौहान (84620टी), 01 अप्रैल 2002।
 एस आर डोके (85101के), 01 अप्रैल 2002।
 एम के चेल (86060आर), 01 अप्रैल 2002।
 सरूप सिंह (86061टी), 01 अप्रैल 2002।
 रविंद्र कुमार (86359डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2002।
 पी डी गिरी (86905के), 01 अप्रैल 2002।
 अमरजीत सिंह (87612टी), 01 अप्रैल 2002।
 ए सी डेविड (87613डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2002।
 अर खान्तवाल (88122ए), 01 अप्रैल 2002।
 डी आर राओ (88123बी), 01 अप्रैल 2002।
 एम सी नायर (88328डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2002।
 आर एस यादव (88600एन), 01 अप्रैल 2002।
 सतर्वेत सिंह (88601आर), 01 अप्रैल 2002।

मदन सिंह (88602टी), 01 अप्रैल 2002।
 आर के सेनी (88112ए), 01 अप्रैल 2002।
 उदय बीर (89113बी), 01 अप्रैल 2002।
 डी पी नेथानी (89114एफ), 01 अप्रैल 2002।
 एन एन त्रिपाठी (89518जेड), 01 अप्रैल 2002।
 रामेश्वर सिंह (89769डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2002।
 सब लेफ्टिनेन्ट (एस डी) से लेफ्टिनेन्ट (एस डी)
 जे दास (89135बी), 01 अप्रैल 2002।
 डी आर गुरंग (85112के), 01 अप्रैल 2002।
 बी देबनाथ (86371वाई), 01 अप्रैल 2002।
 अशोक कुमार (89781वाई), 01 अप्रैल 2002।

एम चन्द्रसेखर

उप निदेशक (ओ ए एण्ड आर)

सेना शाखा

सं. 549, दिनांक 26 अगस्त 2003--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 24.09.2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

श्रीनिवास एस (एम एस-14073एक्स) (एम आर-07841एल), ए एम सी--27.10.1999। वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता

से दी जाएगी इसमें की पूर्णवरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 12.10.2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 04.12.2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के पद पर

यशवीर सिंह दहिया (एम एस-13599एक्स) (एम आर-07835एक्स) (25551एफ), ए एम सी--15.01.1999। वेतन और

पदोन्नति के लिए वरिष्ठता -----से दी जाएगी
इसमें -----के लिए दी गई
-----की पूर्ववरिष्ठता शामिल है, जो सेवा
निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।
(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.05.2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय
की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया
जाता है।

अमीत कुमार एमबीबीएस (एम एस-13900एच) अब (25583टी)
(एम आर-07839टी) ए एम सी, 01.10.1999। वेतन और पदोन्नति के
लिए वरिष्ठता -----से दी जाएगी
इसमें -----के लिए दी गई
-----की पूर्ववरिष्ठता शामिल है, जो सेवा
निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।
(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 1.12.2001 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय
की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया
जाता है।

एम. श्रीवास्तवा
ब्रिगेडियर
डिप्टी डीजीएफएमएस (पी)

थल सेना विभाग

शुद्धि पत्र

सं. 550, दिनांक 22 अगस्त 2003--भारत के राजपत्र संख्या 36 दिनांक
07 सितम्बर 2002 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 537 दिनांक

02 अगस्त 2002 (भाग I अनुभाग 4) शीर्षक नियमित सेना उपशीर्षक रक्षा
तथा सुरक्षा कोर नायब सूबेदार (जी डी) होने के नीचे :--

के स्थान पर --00 हवलदार इकबाल सिंह (3373682ए अब
जेसी-841288एफ),
04 जून 2002।

हवलदार लाला राम (13918968एम अब
जेसी-841293एम),
29 मई 2002।

00 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता--01 अप्रैल
2001)

पढ़ा जाय--00 हवलदार इकबाल सिंह (3373682ए अब
जेसी-841288एफ),
04 जून 2002।

हवलदार लाला राम (13918968एम अब
जेसी-841293एम),
29 मई 2002।

00 (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता--01 अप्रैल
2002)

एस. के. खुराना
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE
(NATIONAL DEFENCE COLLEGE)

New Delhi, the 27th September 2003

No. 541, dated 21 August 2003.—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Singh Takhter, Personal Assistant (Gp 'B', Non-Gazetted) as Private Secretary (Gp 'B', Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- w.e.f. 01 Jan 1999, on his qualifying the Limited Department Competitive Examination, 1997.

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administrative Officer (Admn)

ARMY BRANCH

No. 542, dated 26 August 2003.—The President is pleased to make the following appointment under AI/74/76 as amended :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be LT (On Prob)

Siddharth Shukla (MR-07855-L), AMC, 22 Feb 2003.
Abhishek Kumar Shukla (MR-07856-N), AMC, 22 Feb 2003.

Ashok Kumar (MR-07858-Y), AMC, 22 Feb 2003.

AW Kasif (MR-07859-F), AMC, 22 Feb 2003.

Vipin V Nair (MR-07860-W), AMC, 22 Feb 2003.

Km. Shalinder Kaur (MR-07861-Y), AMC, 22 Feb 2003.

Badal Parikh (MR-07862-F), AMC, 22 Feb 2003.

Ankur Joshi (MR-07863-K), AMC, 22 Feb 2003.

Devendra Kumar Gupta (MR-07864-M), AMC, 22 Feb 2003.

M. SRIVASTAVA
Brig
Dy. DGAFMS (P)

AIR FORCE BRANCH

No. 543, dated 25 August 2003.—The President is pleased to make the following appointments on deputation :—

To be CGO (A)

Shri M Kumar, 08 Aug 2002.

Shri SK Melkani, 09 Aug 2002.

Shri SR Mohapatra, 28 Aug 2002.

Shri MK Singh, 28 Aug 2002.

Shri CP Singh, 29 Aug 2002.

Shri NS Sharawat, 29 Aug 2002.

Shri Naresh Kumar, 29 Aug 2002.

Shri Ashok Kumar, 03 Oct 2002.

Shri K Malik, 29 Oct 2002.

Shri VV Mishra, 05 Jan 2003.

Shri S Choudhary, 15 Mar 2003.

Shri CSN Murthy, 17 Apr 2003.

S. M. SETHI
JDPC

No. 544, dated 22 August 2003.—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

Corps of AD Artillery

To be Substantive Subedar Major (TIFC)

Subedar Raja Gopal K (JC-193497F), 01 May 2003.

To be Substantive Subedar Major (SKT)

Subedar Prem Singh (JC-257007M), 01 May 2003.

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Dinesh Singh (JC-297037M), 20 Nov 2002/15 Jul 2002.*

Nb Sub Gurdial Singh (JC-297603F), 06 Sep 2002/15 Jul 2002.*

Nb Sub Surendra Kumar (JC-297722X), 06 Sep 2002/15 Jul 2002.*

Nb Sub Ramesh Chand (JC-297745Y), 31 Mar 2003/27 Aug 2003.*

Nb Sub Subash Chander (JC-297765M), 24 Apr 2003/01 Oct 2003.*

Nb Sub Rajendra Singh (JC-297291W), 01 Apr 2003/01 Nov 2002.*

Nb Sub Ganesh Singh (JC-297550N), 31 Mar 2003/01 Nov 2002.*

Nb Sub Ashok Kumar (JC-297661L), 28 Mar 2003/01 Dec 2002.*

Nb Sub Ram Mehar Singh (JC-297798X), 01 Dec 2002.

Nb Sub Girja Prasad (JC-297668P), 03 Mar 2003/01 Feb 2003.*

Nb Sub Hari Kumar Rabidas (JC-297790L), 20 Apr 2003/01 Feb 2003.*

Nb Sub Naresh Kumar (JC-297791N), 08 May 2003/01 Feb 2003.*

Nb Sub Adhir Ranjan Das (JC-297659N), 11 Mar 2003/15 Feb 2003.*

Nb Sub Murugesh (JC-297354N), 12 May 2003/28 Feb 2003.*

Nb Sub Prahlad Singh (JC-297577L), 30 Apr 2003/28 Feb 2003.*

Nb Sub Khudanoor (JC-297946X), 10 Mar 2003/01 Mar 2003.*

Nb Sub Om Prakash Rai (JC-297172A), 29 Apr 2003/01 Apr 2003.*

Nb Sub Bhairaw Ghaudhary (JC-297367L), 01 Apr 2003.

Nb Sub Virupaxappa Matolli (JC-297818A), 01 Apr 2003.

Nb Sub Mukhteshwar Singh (JC-296993H), 28 Apr 2003/14 Apr 2003.*

Nb Sub Rathod Ganpat (JC-297585K), 02 Jun 2003/15 Apr 2003.*

Nb Sub Ajaypal Singh (JC-297190M), 17 May 2003/23 Apr 2003.*

Nb Sub Shri Narinder Pal (JC-297427P), 01 May 2003.

To be Substantive Subedar (CLK)

Nb Sub Suraj Bhan (JC-296575N), 16 May 2003/01 May 2003.*

Nb Sub Kuldip Singh (JC-296576W), 01 Jun 2003.

Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-296599X), 01 Jul 2003.

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub Shakti Chand Sharma (JC-296911P), 01 May 2003.

Nb Sub Hira Lal Rajkumar (JC-297237H), 08 May 2003/01 May 2003.*

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Sunder Lal (JC-297567F), 01 Apr 2003.

Nb Sub Rakesh (JC-297596W), 02 Jun 2003/01 Jun 2003.*

Nb Sub Nathu Singh (JC-297599K), 01 Jun 2003.

Nb Sub A Pandi (JC-297632W), 01 Jul 2003.

*(Gtd ante-date seniority wef)

RAJENDRA CHATURVEDI
Under Secy.

No. 545, dated 21 August 2003—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Substantive Subedar

Sub Mahenthiran A (JC-826068A), 03 Jun 2003/01 Jun 2003.*

Sub Sher Singh Katwal (JC-826069H), 03 Jun 2003/01 Jun 2003.*

*Date of seniority

BALRAM VERMA
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 546, dated 22 August 2003 —The President is pleased to make the following promotion :—

To be Sub Maj Technical

Sub Pitambar Dutt Nainwal (JC-225301Y), 01 May 2003.

Sub Kirpal Singh (JC-222292X), 02 June 2003/01 May 2003.*

Sub Balbir Singh Shivram (JC-222469A), 27 May 2003/01 Mar 2003*

Sub Divakara Kurup PB (JC-222094M), 10 May 2003/01 May 2003*

Sub Dalbir Singh (JC-222472A), 01 May 2003

To be Sub Maj Tech AVN

Sub Karnati Venkatarami Reddy (JC-211661K), 28 May 2003/01 Apr 2003*

To be Sub Maj Artzn (NE)

Sub Prasanna Kumar Pillai (JC-747422H), 07 May 2003/01 May 2003*

To be Sub Maj Rec Mech

Sub Dunga Ram (JC-225319P), 05 May 2003/01 May 2003*

To be Sub Maj Dvr (MT)

Sub Gugan Ram (JC-748682A), 01 May 2003

Sub Tarkeshwar Singh (JC-748698L), 07 May 2003/01 May 2003*

To be Sub Technical

Nb Sub Tulsi Ram (JC-752952F), 28 Apr 2003/01 Jun 2002*

Nb Sub Chandra Shekhar Mungali (JC-753269N), 06 May 2003/01 Sep 2002*

Nb Sub Mrityunjay Debnath (JC-753241N), 03 May 2003/01 Sep 2002*

Nb Sub Bipul Chandra Borah (JC-752648X), 02 May 2003/01 Jun 2002*

Nb Sub Puran Chand (JC-753110H), 20 May 2003/01 Aug 2002*

Nb Sub Ashok Kumar Gupta (JC-753523H), 01 May 2003/01 Oct 2002*

Nb Sub Selvaraju K (JC-751084N), 15 Jun 2002/01 Oct 2001*

Nb Sub Surendra Kumar Singh (JC-753450L), 06 May 2003/01 Aug 2002*

Nb Sub Ranbir Singh (JC-753145Y), 03 May 2003/01 Aug 2002*

Nb Sub Mahabir Singh (JC-752567L), 12 May 2003/01 May 2002*

Nb Sub M Arvinda Kumar (JC-753132F), 10 May 2003/01 Aug 2002*

Nb Sub Joseph Francis (JC-752957A), 04 May 2003/28 Aug 2002*

Nb Sub Umesh Kumar Jha (JC-753188N), 28 Apr 2003/01 Sep 2002*

Nb Sub Charan Singh (JC-753310Y), 17 May 2003/01 Sep 2002*

Nb Sub G Govind Raj (JC-753233P), 30 Apr 2003/01 Sep 2002*

Nb Sub Ram Ratan (JC-753144W), 06 May 2003/01 Aug 2002*

Nb Sub Kesha Ram Bora (JC-751420P), 19 May 2003/01 Nov 2001*

Nb Sub D D M Tripathi (JC-753394X), 07 May 2003/01 Oct 2002*

Nb Sub A Subraya (JC-753477H), 26 May 2003/01 Oct 2002*

Nb Sub Probir Kumar Pal (JC-753397L), 31 May 2003/01 Sep 2002*

Nb Sub Dattatreya N G (JC-753120M), 21 Apr 2003/01 Jul 2002*

Nb Sub Devendra Prasad Singh (JC-755153A), 28 May 2003/01 Oct 2002*

Nb Sub Prakash Munga Rane (JC-751632A), 13 Jan 2003/01 Nov 2001*

Nb Sub Rameswar Mohanta (JC-753237L), 19 Apr 2003/01 Sep 2002*

Nb Sub Bikram Singh (JC-753189W), 02 May 2003/01 Aug 2002*

Nb Sub Habibur Rahman (JC-752964W), 03 May 2003/01 July 2002*

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Vasantha Kumar CC (JC-754926Y), 10 May 2003/01 Dec 2001*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Chandeshwar Sharma (JC-752934Y), 10 May 2003/01 Nov 2001*

Nb Sub Shiv Bahadur (JC-751858L), 29 May 2003/01 Aug 2001*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Maheswar Pradhan (JC-752778A), 27 May 2003/01 May 2003*

Nb Sub Vijaya Kumar K (JC-752776P), 15 Mar 2003/01 Feb 2003*

To be Sub Dvr (MT)

Nb Sub Kallu Prasad (JC-753088H), 24 May 2003/01 Oct 2001*

Nb Sub Delip Singh Bisht (JC-752497K), 29 Apr 2003/01 Sep 2001*

To be Sub Maj Technical

Sub Prakash Chandra (JC-221935X), 01 Apr 2003

Sub Ramavtar Jangir (JC-210170F), 21 Apr 2003/01 Feb 2003*

Sub Omkar Agnihotri (JC-210177L), 31 Mar 2003/01 Jan 2003*

Sub Hoshiar Singh (JC-222077M), 01 Feb 2003

Sub Ram Bhajan Singh Pal (JC-222086N), 01 May 2003

Sub Girdhari Lal (JC-222261X), 01 Apr 2003

Sub Venugopalan P (JC-222221W), 01 May 2003

Sub Raohtas Singh Lamba (JC-222277H), 09 Apr 2003/01 Apr 2003*

Sub Ram Kishore Kattiyar (JC-222410A), 01 May 2003

Sub Prabhakar Pradhan (JC-222473H), 01 May 2003

To be Sub Maj Clerk (GD)

Sub Bala Ram Sahoo (JC-224025P), 01 May 2003

To be Sub Maj Tech (AVN)

Sub Suraja Ram (JC-202206A), 07 Apr 2003/01 Apr 2003*

Sub Baldev Singh (JC-214051H), 01 May 2003

To be Sub Maj Artzn (NE)

Sub Shree Ran Singh (JC-222023L), 21 Feb 2003/01 Dec 2002*

Sub Shaik Siddiqh (JC-751215N), 01 May 2003

To be Sub Maj Dvr (MT)

Sub Gajendra Jung Rana (JC-749068X), 01 May 2003

To be Sub Maj Religious Teacher

Sub Mohendra Prasad Chourasia (JC-87493A), 20 Mar 2003/01 Mar 2003*

Sub Ram Kumar Singh (JC-89890X), 07 Apr 2003/01 Mar 2003*

To be Sub Technical

Nb Sub Baljit Singh (JC-752641N), 01 Mar 2003/01 Jun 2002*

Nb Sub Brij Kishore (JC-752658F), 01 Mar 2003/01 Jun 2002*

Nb Sub Hargovind Namdev (JC-752653H), 25 Mar 2003/01 Jun 2002*

Nb Sub Ajay Kumar Sinha (JC-751588F), 27 Jan 2003/01 Nov 2001*

Nb Sub Vinod Singh Rawat (JC-752564K), 01 Feb 2003/01 Jun 2002*

Nb Sub Haribhan Dutt Chaubey (JC-753103M), 17 Dec 2002/01 Jul 2002*

Nb Sub Bhavar Shankar Rao Sudam (JC-751745H), 17 Feb 2003/01 Nov 2001*

Nb Sub Antony KC (JC-752531Y), 01 Feb 2003/01 May 2002*

Nb Sub MA Ali (JC-752565M), 25 Feb 2003/01 May 2002*

Nb Sub Biswanath Sen Gupta (JC-7520001P), 01 Mar 2003/01 Nov 2001*

Nb Sub A Selvaraj (JC-753037P), 01 Jan 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Ranvir Singh Savita (JC-752583P), 01 Feb 2003/01 May 2002*

Nb Sub Kulbahadur Chhetri (JC-752649A), 27 Mar 2003/01 Jun 2002*.

Nb Sub Anantha Raman G (JC-753096F), 01 Mar 2003/01 Jun 2002*.

Nb Sub Chandrakant (JC-751570L), 12 Apr 2003/01 Oct 2001*.

Nb Sub Hem Raj (JC-750845F), 28 Apr 2003/01 Sept 2001*.

Nb Sub Tanwir Ahmed (JC-753149P), 29 Apr 2003/01 Jul 2002*.

Nb Sub Pancham Singh (JC-753275F), 29 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub MR Chandel (JC-753142L), 27 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Shyama Kant Pathak (JC-753487H), 01 May 2003/01 Oct 2002*.

Nb Sub Ramkrishna (JC-752969P), 26 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Uttam Chhetri (JC-753104P), 28 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Gopal Dutt (JC-752889X), 28 Apr 2003/01 Jun 2002*.

Nb Sub Devendra Datt Shukla (JC-753174N), 27 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Sant Kumar Dotasara (JC-753306W), 07 May 2003/01 Sep 2002*.

Nb Sub C Chinnadurai (JC-752859A), 28 Apr 2003/01 Jun 2002*.

Nb Sub Mahinder Singh Verma (JC-753159Y), 28 Apr 2003/01 Jun 2002*.

Nb Sub Rup Chand (JC-753143N), 29 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Shish Ram Gurjar (JC-753293K), 30 Apr 2003/01 Sep 2002*.

Nb Sub Biji KV (JC-753130W), 01 May 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Harprashad Singh Payana (JC-755152H), 23 Apr 2003/01 Oct 2002*.

Nb Sub Jagram Singh (JC-752949F), 07 May 2003/01 Jun 2002*.

Nb Sub S Mohamad Ibrahim (JC-753239W), 01 May 2003/01 Sept 2002*.

Nb Sub Ram Lal (JC-753878X), 09 May 2003/01 Nov 2002*.

Nb Sub Rabindra Nath Paul (JC-753391X), 03 May 2003/01 Sep 2002*.

Nb Sub Bikramjit Singh (JC-753202P), 02 May 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Binay Krishna Pal (JC-753039A), 01 May 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Nidhan Singh (JC-753163F), 29 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Appaji Patil (JC-753162Y), 26 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Raghubir Singh (JC-753197P), 26 Apr 2003/01 Sep 2002*.

Nb Sub Shri Niwas Singh (JC-751403P), 10 May 2003/01 Nov 2001*.

Nb Sub Shivraj Kumar Vashishtha (JC-753036M), 02 May 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Yoginder Singh Yadav (JC-753472K), 01 May 2003/01 Oct 2002*.

Nb Sub Brij Bihari (JC-753307Y), 12 May 2003/01 Sep 2002*.

Nb Sub Bhupender Prasad (JC-752972P), 07 May 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Mubark Hussain (JC-753105X), 20 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Dharmanand (JC-753113W), 05 May 2003/01 Jul 2002*.

Nb Sub Suryaji Akaram Nalawada (JC-753138H), 19 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Sushil Kumar (JC-753803A), 18 Dec 2003/01 Nov 2002*.

Nb Sub Nilamani Sahoo (JC-751018L), 13 May 2003/01 Oct 2001*.

Nb Sub Yeswant Singh Rawat (JC-753101F), 05 May 2003/01 Jul 2002*.

Nb Sub Ashok Kumar (JC-753032W), 26 Apr 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Pranabananda Paul (JC-753242W), 16 May 2003/01 Sep 2002*.

Nb Sub Rudal Prasad (JC-753309K), 09 May 2003/01 Sep 2002*.

Nb Sub NC Ghosh (JC-753382H), 10 May 2003/01 Sep 2002*.

Nb Sub Uttam Kumar Sarkar (JC-753474P), 14 May 2003/01 Oct 2002*.

Nb Sub Kamal Iqbal Singh (JC-753481L), 01 May 2003/01 Oct 2002*.

Nb Sub Ram Awadh (JC-753483W), 01 May 2003/01 Oct 2002*.

Nb Sub Satyabeer Singh (JC-753485F), 06 May 2003/01 Oct 2002*.

Nb Sub Mani Raj M (JC-753441K), 21 May 2003/01 Oct 2002*.

Nb Sub Bal Krishan (JC-753152P), 07 May 2003/01 Aug 2002*.

Nb Sub Rohtash Singh (JC-753399W), 28 Apr 2003/01 Oct 2002*.

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Suleman Khan (JC-752721L), 30 Dec 2002/01 Aug 2001*.

Nb Sub Resham Singh (JC-753251X), 12 Apr 2003/01 Sep 2001*.

Nb Sub S Subba Rao (JC-753018K), 14 Jan 2003/01 Sep 2001*.

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Yamuna Prasad (JC-753212Y), 01 Mar 2003/01 Sep 2001*.

Nb Sub RA Sharma (JC-752933W), 01 May 2003/01 Nov 2001*.

Nb Sub Omkar Singh (JC-752874P), 14 May 2003/01 Dec 2001*.

To be Sub Tech (AVN)

Nb Sub Nirmal Singh (JC-755603H), 01 Apr 2003.

Nb Sub Naresh Kumar (JC-755376N), 01 Apr 2003.

Nb Sub Sardar Singh (JC-755394W), 01 Mar 2003.

Nb Sub Balram (JC-755390A), 01 Apr 2003.

Nb Sub AK Singh (JC-755395Y), 01 Apr 2003.

Nb Sub G Lingaraja Dora (JC-755388H), 01 Apr 2003.

Nb Sub Vidya Sagar (JC-755377W), 01 May 2003.

Nb Sub S Ravi (JC-755600P), 01 Apr 2003.

Nb Sub Dinesh Chandra Tripathi (JC-755601X), 12 May 2003/01 Apr 2003*.

To be Sub Clerk (GD)

Nb Sub Tulsi Charan (JC-753215M), 10 Mar 2003/01 Feb 2003*.

To be Sub SKT

Nb Sub Pratap Singh (JC-753414A), 03 Feb 2003/01 Nov 2002*.

Nb Sub Bhim Prasad Bind (JC-753518L), 01 Mar 2003.

Nb Sub Ranjit Singh (JC-753520K), 15 Apr 2003/01 Mar 2003*.

To be Sub Remech

Nb Sub Bishan Dev (JC-751926X), 01 Mar 2003/01 Nov 2001*.

Nb Sub Umed Singh (JC-751991N), 01 May 2003.

Nb Sub Hara Prasad Ghosh (JC-751649N), 01 Apr 2003/01 Oct 2001*.

To be Sub Armr

Nb Sub Ghisa Lal (JC-754015H), 26 Mar 2003/01 Oct 2001*.

Nb Sub Verma Ghanshyam Jaganathji (JC-752685L), 12 Mar 2003/01 Aug 2001*.

Nb Sub Nityanand Sharma (JC-754221M), 02 May 2003/01 Oct 2001*.

To be Sub Dvr (MT)

Nb Sub Jag Narain Ram (JC-752337K), 02 Feb 2003/01 Sep 2001*.

Nb Sub Awadh Narain Yadav (JC-752789M), 07 Apr 2003/01 Oct 2001*.

Nb Sub Surender Singh (JC-754967H), 01 Jan 2003/01 Oct 2000*.

Nb Sub PK Sashidharan (JC-752792M), 01 May 2003/01 Oct 2001*.

Nb Sub Narain Saran (JC-752903Y), 01 May 2003/01 Oct 2001*.

Nb Sub Kaushal Kishore (JC-752790F), 07 May 2003/01 Oct 2001*.

To be Sub Religious Teacher

Nb Sub Radhakrishnan Dwivedi (JC-748048X), 31 Mar 2003/01 Mar 2003*.

(*Gtd ante date of seniority)

ARMY ORDNANCE CORPS

TO BE NAIB SUBEDAR

Hav Amn Tech Madhukar Mehta (6927726M now JC-725739X), 03 June 2003*.

*Gtd Seniority wef 01 May 2002 without effect on pay and allces.

Hav Amn Tech Deepak Kumar Rout (6927791N now JC-725740M), 01 June 2002.

Hav Amn Tech Laxmi Kanta Pradhan (6927807N JC-725741P), 01 June 2003.

Hav Amn Tech Khirodo Chandro Jena (6927835A now JC-725742X), 01 June 2002.

Hav Clk S Pray Baldev Singh Sayal (6917448X now JC-725743A), 27 May 2002*.

*Gtd Seniority wef 01 April 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Parminder Singh (6917460Y now JC-725744H), 13 June 2002*.

*Gtd Seniority wef 01 May 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Shri Nath Singh (6917467H now JC-725745H), 01 June 2002

Hav Clk S Cont Jay Prakash Choubey (6917468L now JC-725746N), 01 June 2002

Hav Clk S Cont Vijay Singh Jaryal (6917461F now JC-725747W), 01 June 2002

Hav Clk S Cont Vijay Kumar Sharma (6917477M now JC-725748Y), 04 June 2002*

*Gtd Seniority wef 01 June 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Joginder Singh Thakur (6917488Y now JC-725749F), 01 June 2002

Hav Clk S Cont Kuldip Singh (6917489F now JC-725750W), 20 June 2002*

*Gtd Seniority wef 01 June 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Udai Pratap Singh (6917498M now JC-725751Y), 15 June 2002*

*Gtd Seniority wef 01 June 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont A Umesh (6917500P now JC-725752F), 01 June 2002

Hav Skt Mt Shesh Nath Pandey (6914555N now JC-725753K), 27 May 2002*

*Gtd Seniority wef 01 Oct 2001 without effect on pay and allces.

Hav Skt Amn Om Prakash Godara (6919745K now JC-725754M), 21 May 2002*

*Gtd Seniority wef 01 May 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Amn Ashok Kumar (6919751X now JC-725755P), 01 June 2002.

Hav Skt MT Prabat Singh Sisodia (6919756F now JC-725756X), 01 June 2002

Hav Skt Mt Mohar Singh (6919768L now JC-725757A), 01 June 2002.

Hav Skt Engr Jai Bhagwan (6919778P now JC-725758H), 01 June 2002.

Hav Dvr Spl Bhanwar Lal (6912304L now JC-725759L), 18 May 2002*.

*Gtd Seniority wef 01 May 2002 without effect on pay and allces.

Hav Dvr Spl Indra Singh (6912263M now JC-725760A), 01 May 2002.

Hav Dvr Mt P Subramanian (6912229M now JC-725761H), 23 June 2002*.

5—254GI/2003

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Dvr Mt Rajinder Kumar Shukla (6912488P now JC-725762L), 20 June 2002*.

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Shgd Ram Shankar Singh (6911758M now JC-725763N), 01 June 2002.

Hav Shgd Veera Bhadrach (69112178K now JC-725764W), 01 June 2002*.

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Amn Tech Govind Prasad (6927870H now JC-725765Y), 01 July 2002.

Hav Clk S Cont Daler Singh (6917480M now JC-725766F), 26 June 2002*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Ram Pratap Singh (6917499L now JC-725767K), 26 June 2002*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk Gd Madan Lal (6913311N now JC-725768M), 01 July 2002.

Hav Clk Gd Ram Pratap (6916770 X now JC-725769P), 01 July 2002.

Hav Clk Gd Shiva Shankar Ray (6917342L now JC-725770K), 01 July 2002.

Hav Clk S Cont Subhash Singh (6917517M now JC-725771M), 01 July 2002.

Hav Skt Mt Man Singh (6919760Y now JC-725772P), 01 June 2002.

Hav Skt Engr Bahu Singh (6919782X now JC-725773X), 01 July 2002.

Hav Skt Engr Uday Singh (6919784H now JC-725774A), 01 July 2002.

Hav Skt GS & C Rajput Ramdhar Singh (6019787W now JC-725775H), 01 July 2002.

Hav Dvr Mt Shyam Narayan Ram (6912501N now JC-725776L), 01 June 2002.

Hav Shgd Gabru Mangoo Jadhav (6912315X now JC-725777N), 01 June 2002.

Hav Amn Tech Narendra Nath Rath (6927793Y now JC-725778W), 05 June 2002*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Amn Tech Jadhav Bhagwan Krishna (6927839W now JC-725779 Y), 01 July 2002.

Hav Amn Tech Jadhav Sunil Vasant (6924337 H now JC-725780N), 01 July 2002.

Hav Amn Tech Bishno Priyo Tripathi (6927819H now JC-725781W), 01 July 2002.

Hav Amn Tech Jagmohan Sharma (6927857Y now JC-725782Y), 01 July 2002.

Hav Clk S Cont Jhujar Singh (6917462 K now JC-725783F), 06 July 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Satinder Kumar (6917478 P now JC-725784K), 28 June 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Jagdip Singh (6917485L now JC-725785M), 25 June 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Davinder Singh (6917509 K now JC-725786P), 01 July 2002.

Hav Clk S Prov Naripendra Nath Sarkar (6910479P now JC-725787X), 01 July 2002

Hav Clk Gd Ram Niwas Sharma (6917351 M now JC-725788A), 08 July 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Tarasem Singh Manhas (6917514 P now JC-725789 H), 01 July 2002

Hav Clk S Cont Jagbir Singh (6917504 L now JC-725790 X), 01 June 2002.

Hav Skt Mt Dharam Pal (6919736 H now JC-725791A), 30 May 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 May 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Mt Amba Lal Jangid (6919755 N now JC-725792 H), 28 June 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Amn Desh Raj (6919767 H now JC-725793 L), 11 July 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Mt Ravindra Singh Tomar (6919774 Y now JC-725794 N), 01 June 2002.

Hav Skt Gs & C Ram Gopal Singh (6919780 M now JC-725795W), 13 June 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Wep Rajendra Prasad (6919792 F now JC-725796 Y), 02 July 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Mt Jai Singh Yadav (6919798 H now JC-725797 F), 01 July 2002.

Hav Skt Amn Satnam Singh (6919801 H now JC-725798 X), 01 July 2002.

Hav Skt Wep Mahesh Chandra Dubey (6919802 A now JC-725799M), 01 July 2002.

Hav Skt Engr Jagdish Chander (6919803 H now JC-725800 W), 01 July 2002.

Hav Skt GS&C Debendra Kumar Raut (6917142P now JC-725801Y), 01 July 2002.

Hav Skt Engr Swarn Singh (6914282W now JC-725802F), 01 July 2002.

Hav Skt Sig Sugriv Singh (1919793K now JC-725803K), 09 July 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces.

Hav Sht K. Sudhakaran Nair (6912700 F now JC-725804M), 01 July 2002

Hav Shgd Khushal Prasad Ghasiya (6911607N now JC-725805P), 22 June 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Amn Tech Dayanidhi Behra (6927786N now JC-725806X), 17 July 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Amn Tech Saseendharan K (6924625 P now JC-725807A), 01 Aug 2002

Hav Amn Tech Yesalapu Ganga Raju (6925101A now JC-725808H), 01 Aug 2002.

Hav Amn Tech Dhotre Basvaraj Narayan (6924559X now JC-725809L), 06 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Girand Singh Verma (6917502A now JC-725810A), 22 June 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Ramasraye Singh (6917508 F now JC-725811H), 04 Jul 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Mohinder Singh (6915639N now JC-725812L), 01 July 2002.

Hav Clk S Prov Chako VC (6915693F now JC-725813N), 01 July 2002.

Hav Clk S Cont Virendra Nath Singh (6917518L now JC-725814W), 01 Aug 2002.

Hav Clk S Cont Rakesh (6917519N now JC-725815Y), 01 Aug 2002.

Hav Clk Cont Mohan Singh (6917521L now JC-725816F), 05 Aug. 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Shamsher Singh (6917524 Y now JC-725817K), 01 Aug 2002.

Hav Clk S Cont Shiv Narayan Singh (6917526K now JC-725818M), 01 Aug. 2002.

Hav Clk S Cont Tej Pratap (6917527M now JC-725819P), 11 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Rup Chandra Singh Kushwah (6917528 P now JC-725820K), 05 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk s Cont Munni Lal Sharma (6917529X now JC-725821M), 01 Aug 2002.

Hav Clk S Cont Sukh Dev Singh (6917533 A now JC-725822P), 01 Aug 2002.

Hav Clk S Cont Mohd. Usman (6917534H now JC-725823X), 01 Aug 2002.

Hav Clk S Cont Nazar Singh (6917535L now JC-725824A), 09 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Parshu Ram (6917536N now JC-725825H), 01 Aug 2002.

Hav Skt Amn Sanjay Kumar (6919712 Y now JC-725826L), 25 July 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Mar 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Wep Amar Singh (6919795P now JC-725827N), 01 July 2002.

Hav Skt Sig Devendra Pal Singh (6919796X now JC-725828W), 01 July 2002.

Hav Skt Mt Jal Singh (6919764P now JC-725829Y), 20 July 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Jul 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Sig Suresh Kumar (6919814P now JC-725830N), 01 Aug 2002.

Hav Skt GS&C Laxmidhar Pradhan (6919825F now JC-725831W), 06 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt GS&C Saroj Kumar Rout (6919827M now JC-725832Y), 01 Aug 2002.

Hav Skt GS&C Bhagirath Sahu (6919839F now JC-725833F), 06 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Wep Biradar Basvaraj Shiv Gondappa (6919841Y now JC-725834K), 01 Aug 2002.

Hav Skt GS&C Prasanta Kumar Tupakula (6919845P now JC-725835M), 01 Aug 2002.

Hav Skt GS&C Gaya Singh (6919852L now JC-725836P), 17 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt GS&C Vijayan MP (6919853N now JC-725837X), 01 Aug 2002.

Hav Skt Wep Prakash (6919838A now JC-725838A), 20 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Amn Tech R Shiv Prakasam (6925113P now JC-725839 H), 01 Sept 2002.

Hav Amn Tech M Shankarling (6926055H now JC-725840X), 01 Sept 2002.

Hav Amn Tech B. R. Patel (6926287F now JC-725841A), 01 Sept 2002.

Hav Clk S Cont Tilak Raj Saini (6917530M now JC-725842H), 31 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Bhoop Singh (6927122P now JC-725843L), 01 Sept 2002.

Hav Clk S Cont Ram Singh (6927123X now JC-725844N), 01 Sept 2002.

Hav Clk S Cont Choudhary Anil Kumar (6927126L now JC-725845W), 01 Sept 2002.

Hav Clk S Cont Ram Mehar (6927129Y now JC-725846Y), 01 Sept 2002.

Hav Clk S Cont. Sukhbir Singh (6927131W now JC-725847F), 01 Sept 2002.

Hav Clk S Cont Manohar Lal (6927136P now JC-725848K), 01 Sept 2002.

Hav Clk S Cont Daler Singh (6927292X now JC-725849M), 01 Sept 2002.

Hav Clk S Cont Ramesh Chandra (6927325Y now JC-725850F), 01 Sep 2002.

Hav Clk S Cont Vinod Kumar (6927422W now JC-725851K), 02 Sep 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S cont Surinder Katoch (6927504Y now JC-725852M), 01 Sep 2002.

Hav Clk S Cont A. K. Sharma (6927506K now JC-725853P), 01 Sep 2002.

Hav Clk S Cont S. Q. Khan (6927515A now JC-725854X), 01 Sep 2002.

Hav Clk S Cont B. Mishra (6927680W now JC-725855A), 13 Sep 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Mt Suresh P. P. (6919777 H now JC-725856H), 16 July 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Jun 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Sig Prakash Narayan (6919813M now JC-725857L), 09 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Amn Brij Mohan (6919815X now JC-725858N), 01 Aug 2002.

Hav Skt GS&C Ramesh Chandra Singh (6919821L now JC-725859W), 16 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Wep P P Ram Das (6919823W now JC-725860L), 01 Aug 2002.

Hav Skt Wep K Parida (6919837W now JC-725861N), 27 Aug 2002.*

*Gtd Seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Amn Rajesh Kumar (6919851H now JC-725862W), 01 Aug 2002.

Hav Skt GS&C K C Sharma (6919855Y now JC-725863Y), 01 Sep 2002.

Hav Skt Amn Suresh Chandra Pal (6919856F now JC-725864F), 01 Sep 2002.

Hav Skt Engr K K Sharma (6919857K now JC-725865K), 01 Sep 2002.

Hav Skt GS&C Daya Ram (6919859P now JC-725866M), 01 Sep 2002.

Hav Skt Engr K K Prakhali (6919865H now JC-725867P), 01 Sep 2002.

Hav Skt GS&C Amar Singh (6919871W now JC-725868X), 01 Sep 2002.

Hav Skt Wep Phool Singh (6919883L now JC-725869A), 01 Sep 2002.

Hav Skt GS&C Jagdale Sunil Sopan (6919888K now JC-725870P), 01 Sep 2002.

Hav Skt Engr Surender Singh Negi (6919892M now JC-725871X), 01 Sep 2002.

Hav Skt Wep Ajit Kumar Das (6919932H now JC-725872A), 01 Sep 2002.

Hav Skt Sig JK Mishra (6919934N now JC-725873H), 01 Sep 2002.

Hav Ptr (U) KK Roy (6915474A now JC-725874L), 01 Sep 2002.

Hav M/Smith Rameshwar Pateshwari (6916333X now JC-725875N), 14 Aug 2002.*

*Gtd seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Dyr. Spl Sankar Sarkar (6912524P now JC-725877Y), 01 Jun 2002.

Hav Clk S Cont Hans Raj (6917537Y now JC-725878F), 17 Aug 2002.*

*Gtd seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Pritam Singh (6917538Y now JC-725879K), 01 Sep 2002.*

*Gtd seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont GC Sahi (6927307W now JC-725880Y), 01 Sep 2002.

Hav Clk S Cont Arvind Kumar Upadhyay (6927513A now JC-725881F), 01 Sep 2002.

Hav Skt MT G Ayyappan (6919786N now JC-725882K), 05 Oct 2002.*

*Gtd seniority wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Wep Surendra Yadav (6919898N now JC-725883M), 28 Sep 2002.*

*Gtd seniority wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Sig Mansa Ram Ghosh (6919808F now JC-725884P), 31 Aug 2002.*

*Gtd seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Wep Ram Raj Pal (6919897L now JC-725885X), 01 Sep 2002.

Hav Clk S Cont Sohan Singh Gehlot (6914472H now JC-725886A), 23 Dec 2002.*

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Megh Singh (6927512X now JC-725887H), 11 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Satwant Singh (6927696F now JC-725888L), 01 Oct 2002.

Hav Clk S Cont Asutosh Saha (6927762Y now JC-725889N), 01 Oct 2002.

Hav Clk S Cont Sehgal Singh (6927764A now JC-725890H), 01 Oct 2002.

Hav Clk GD Hari Lal SK (6925961N now JC-725891L), 01 Nov 2002.

Hav Clk GD Unnikrishnan C (6925974L now JC-725892N), 01 Nov 2002.

Hav Clk GD Mohanan PM (6925975H now JC-725893W), 09 Nov 2002.

*Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk GD Augustine George (6925980Y now JC-725894Y), 01 Nov 2002.

Hav Clk GD Anil Kumar OP (6925982K now JC-725895F), 09 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk GD Bhushan (6926563Y now JC-725896K), 23 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk GD Kunjappa JM (6926720A now JC-725897M), 01 Nov 2002.

Hav Clk GD Braham Prakash (6927135M now JC-725898P), 19 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk GD Bahadur Singh Kanwar (6927576H now JC-725899X), 01 Nov 2002.

Hav Skt MT Ramesh Kumar (6927327K now JC-725900F), 07 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Sig Kanhiya Singh (69219809K now JC-725901K), 24 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Wep Rajendra Singh (6919942M now JC-725902M), 10 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Wep Mohendra Nath Behra (6919947L now JC-725903P), 01 Oct 2002.

Hav Skt Wep Udayvir Singh Malik (6919949W now JC-725904X), 10 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Sht Shyamal Chandra Sarkar (6912812F now JC-725905A), 04 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Ptr (U) Rajendra Sharma (6914799X now JC-725906H), 26 Nov 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Rajesh Kumar (6928158A now JC-725907L), 07 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk S Cont Sarvesh Kumar Pandey (6928180L now JC-725908N), 14 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Wep Krishna Bahadur Singh (6919943P now JC-725909W), 24 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt G S&C Sultan Singh (6926349W now JC-725910L), 01 Oct 2002.

Hav Clk GD Shafiulla Beigh TR (6926027W now JC-725911N), 01 Oct 2002.

Hav Clk GD Purshotam Chand (6926545W now JC-725912W), 28 Nov 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Sig Inder Pal (6919955K now JC-725913Y), 17 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk GD Rajendra Prasad Mishra (6927794F now JC-725914F), 01 Dec 2002.

Hav Clk GD Mahender Singh (6927813F now JC-725915K), 24 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk GD Ravi Kant (6928355H now JC-725916M), 01 Dec 2002.

Hav Clk GD Sathian T (6928395K now JC-725917P), 01 Dec 2002.

Hav Clk GD Debarata Deb (6928436H now JC-725918X), 01 Dec 2002.

Hav Clk GD Sewa Singh (6915092W now JC-725919A), 01 Dec 2002.

Hav Clk GD Jai Mangal Singh (6915414L now JC-725920P), 01 Dec 2002.

Hav Skt MT Lalji Rai (6915728N now JC-725921X), 01 Dec 2002.

Hav Shgd Henry Kaundlna (6912478L now JC-725922A), 11 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Shgd Rajender Prasad Singh (6912928Y now JC-725923H), 08 Dec 2002.

Hav Shgd Pratap Singh (6913057P now JC-725924L), 18 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Dvr MT Ramesh Singh (6913193L now JC-725925N), 18 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk GD Ramayan Sharma (6916955Y now JC-725926W), 01 Jan 2003.

Hav Clk GD Mathew PP (6915888Y now JC-725927Y), 01 Jan 2003.

Hav Clk GD Sainudeen K (6925978F now JC-725928F), 01 Jan 2003.

Hav Clk GD Anil Kumar S (6926516F now JC-725929K), 30 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

Hav Clk GD Murali Dharan K (6928469N now JC-725930Y), 06 Jan 2003*.

*Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.

Hav Skt MT Ramesh Kumar (6916800K now JC-725931F), 03 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Sig Ashok Kumar (6919956M now JC-725932K), 23 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

Hav Sht Nagendra Nath Roy (6912310W now JC-725933M), 15 Jan 2003*.

*Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt MT Ram Janam Ram (6916972Y now JC-725934P), 31 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Sht Shiv Narayan (6912677Y now JC-725935Y), 01 Oct 2002.

Hav Clk GD Sarat Kumar Mishra (6913110P now JC-725936A), 01 Jan 2003.

Hav Clk GD Nimai Murmu (6916124A now JC-725937H), 02 Jan 2003*.

*Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.

Hav Clk GD Narender Singh (6916784X now JC-725938L), 01 Jan 2003.

Hav Clk GD Sanjeev P (6926541A now JC-725939N), 01 Jan 2003.

Hav Shgd Anil Kumar K (6930963H now JC-725940H), 10 Jan 2003*.

*Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Shgd Param Hans Ram (6911849W now JC-725941L), 11 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Shgd Adapa Venkatesha Giri Rao (6912821H now JC-725942N), 21 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Shgd Kul Bahadur Chetry (6913039M now JC-725943W), 21 Jan 2003*.

*Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Shgd Sant Ram (6913096N now JC-725944Y), 19 Dec 2002*.

*Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Shgd Shaik Kasim Para (6913075X now JC-725945F), 15 Dec 2002.

Hav Shgd Balwader Singh (6913253P now JC-725946K), 15 Dec 2002.

Hav Shgd Rajkumar (6913329K now JC-725947M), 15 Dec 2002.

Hav Amn Tech Surinder Singh (6916602Y now JC-725949X), 20 Jan 2003*.

*Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.

Hav Skt Sig Om Prakash (6919967Y now JC-725948P), 01 Jan 2003.

Hav Amn Tech Wakil Poddar (6927728Y now JC-725950M), 26 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 May 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech TK Ghosh (6927788N now JC-725951P), 22 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech RC Panda (6927768A now JC-725952X), 08 Dec 2002.*

*(Gtd seniority wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech Har Govind Singh (6926293P now JC-725953A), 16 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech BK Biswas (6927698M now JC-725954H), 24 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech RK Pathak (6923319N now JC-725955L), 20 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech RK Patra (6927812Y now JC-725956N), 22 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech Phool Kumar (6927910Y now JC-725957W), 19 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech AK Thakur (6924844W now JC-725958Y), 01 Jan 2003.

Hav Amn Tech RA Pandey (6925116H now JC-725959F), 22 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk GD Roshan Lal (6915194M now JC-725960W), 01 Jan 2003.

Hav Clk GD Pramod Rai (6915653A now JC-725961Y), 01 Jan 2003.

Hav Clk GD KP Tripathi (6917166Y now JC-725962F), 01 Feb 2003.

Hav Skt Sig Chadmi Lal (6919960P now JC-725963K), 30 Dec 2002.*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Skt GS&C TS Rawat (6919878A now JC-725964M), 01 Jan 2003.

Hav Skt Engr Prakash Singh (6919991P now JC-725965P), 01 Feb 2003.

Hav Dvr Spl CS Prasad (6912537M now JC-725966X), 08 Dec 2002.

Hav Dvr Spl AR Biswas (6912587X now JC-725967A), 12 Dec 2002.*

*(Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Dvr Spl Niranjan Lal (6912581W now JC-725968H), 22 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Dvr MT Pradip Saikia (6912685K now JC-725969L), 22 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Dvr MT JS Rana (6912950H now JC-725970A), 01 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Dvr Spl BL Sharma (6912956K now JC-725971H), 15 Jan 2002.

Hav Dvr MT MP Singh (6912719A now JC-725972L), 22 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Dvr MT Rajbir Upadhyay (6911045F now JC-725973N), 16 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Dvr Spl Laxman Singh (6913101N now JC-725974W), 18 Dec 2002.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Dvr MT Kamatanu Gabriel (6913207A now JC-725975Y), 20 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Sht Sri Kanta Chowdhary (6912895X now JC-725976F), 01 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Janak Singh (6913252M now JC-725977K), 22 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Ram Kripal Chaudhary (6912548Y now JC-725978M), 08 Dec 2002.

Hav Shgd Rajendra Gupta (6911109F now JC-725979P), 28 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Surendra Singh (6912549F now JC-725980K), 23 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Prem Pal Singh (6912988M now JC-725981M), 10 Dec 2002.*

*(Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Viveka Nand Chandra (6913092X now JC-725982P), 23 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Jai Karan Pal (6913113H now JC-725983X), 23 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Lav Prasad Pal (6913185M now JC-725984A), 20 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Ram Rup Ram (6912504F now JC-725985H), 24 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Govind Ram (6913251K now JC-725986L), 20 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Prakash Singh (6913255A now JC-725987N), 18 Dec 2002.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Netar Prakash (6913256M now JC-725988W), 21 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Manohar Singh (6913334P now JC-725989Y), 19 Dec 2002.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Surat Singh (6913344P now JC-725990N), 10 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech Siba Prasad Dash (6927837L now JC-725991W), 28 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Ram Swarup Yadav (6928112X now JC-725992Y), 01 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Prov Harvinder Singh (6917432M now JC-725993F), 04 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Dinesh Kumar (6917531P now JC-725994K), 03 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk GD Kulvinder Singh Rana (6927657H now JC-725995M), 01 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk GD Birender Singh Yadav (6928345Y now JC-725996P), 01 Feb 2003.

Hav Clk GD Rajeshwar Rai (6928464P now JC-725997X), 01 Feb 2003.

Hav Clk GD Avinash Chandra (6915739Y now JC-725998A), 01 Feb 2003.

Hav Clk GD Keshav Prasad (6916480A now JC-725999H), 01 Feb 2003.

Hav Clk GD Killari Sampathi Rao (6917007F now JC-726000K), 01 Feb 2003.

Hav Clk S Cont Mahendra Giri (6917542X now JC-726001M), 01 Feb 2003.

Hav Clk S Cont Balwant Singh (6917544H now JC-726002P), 01 Feb 2003.

Hav Clk S Cont Ranjit Singh (6917549F now JC-726003X), 01 Feb 2003.

Hav Clk S Cont Kulwinder Singh (6917550A now JC-726004A), 01 Feb 2003.

Hav Clk S Cont Ajayveer Dubey (6917551Y now JC-726005H), 01 Feb 2003.

Hav Clk S Cont Shukla Uma Shankar (6917562L now JC-726006L), 01 Feb 2003.

Hav Clk GD Yespal Singh (6928336X now JC-726007N), 01 Feb 2003.

Hav Clk S Cont Rajesh Kumar (6917569P now JC-726008W), 01 Feb 2003.

Hav Clk S Cont Hari Ram Aheer (6917564W now JC-726009Y), 01 Feb 2003.

Hav Skt Wep Sanjay Kumar Parida (6919939M now JC-726010N), 19 Dec 2002.*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Sig Sri Krishna (6919958X now JC-726011W), 30 Dec 2002.*

*(Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Amn Ashok Kumar Nandi (6915609W now JC-726012Y), 29 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Sig Suresh Singh Mehra (6919976A now JC-726013F), 01 Feb 2003.

Hav Skt Sig Him Bahadur Bhandari (6919977H now JC-726014K), 04 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt MT Kamal Kant Samal (6919980H now JC-726015M), 03 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Engr Mohan Singh (6919990M now JC-726016F), 18 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Engr Diwan Singh (6919992X now JC-726017X), 01 Feb 2003.

Hav Skt Sig Prabhakar Tiwari (6919966W now JC-726018A), 17 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Engr Madhukar Singh (6919996N now JC-726019H), 13 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Engr Jagdish Singh (6919997W now JC-726020X), 15 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Sig Suresh Sharma (6919974P now JC-726021A), 20 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Dvr MT Chandgi Ram (6912778M now JC-726022H), 26 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Dvr MT Lachit Gohain (6913017N now JC-726023L), 15 Dec 2002.

Hav Dvr MT Ranbir Chand (6913308N now JC-726024N), 01 Feb 2003.

Hav Tlr (U) Gumna Ram Chaudhary (6917904X now JC-726025X), 01 Feb 2003.

Hav Sht Ratna Kanta Hazarika (6913020N now JC-726026Y), 01 Jan 2003.

Hav Shgd Awadhesh Dwivedi (6913102W now JC-726027F), 08 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Charan Das (6913243L now JC-726028K), 05 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Suresh Kumar (6913472W now JC-726029M), 01 Feb 2003.

Hav Shgd Ranjit Singh (6913348P now JC-726030F), 04 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Satya Dev Dixit (6913353A now JC-726031K), 01 Feb 2003.

Hav Shgd Bhajan Singh (6913363K now JC-726032M), 07 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Mohamoddin Anasari (6912939K now JC-726033P), 27 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Sasidharan P (6913162L now JC-726034X), 03 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Niranjana Mishra (6913542K now JC-726035A), 15 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Engr Lakhan Singh (6919788Y now JC-726036H), 26 Sep 2002.

Hav Skt Wpn Hasant Kumar Jena (6919950L now JC-726037L), 16 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Sudhakar Sahu (6917546N now JC-726038N), 11 Apr 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Rajpal Singh (6917548H now JC-726039W), 10 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Landge Rohidas Kushaba (6917552F now JC-726040L), 18 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Lakhan Singh (6912486K now JC-726041N), 29 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Kanhai Kumar (6913015H now JC-726042W), 24 Jan 2003.*

*(Gtd seniority wef 08 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Bhola Sahu (6913177Y Now JC-726043Y), 27 Jan 2003*

*(Gtd seniority wef 15 Dec 2002 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Wpn Mool Chand (6914117L Now JC-726044F), 19 Feb 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt MT Prahalad Lenka (6919626N Now JC-726045K), 04 Feb 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt MT Hukam Singh (6919742W Now JC-726046M), 01 Jan 2003.

Hav Skt Amn Verendra Singh Rawat (6919877X Now JC-726047P), 03 Feb 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Jan 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Wpn Mohamad Ohiya (6919884N Now JC-

726048X), 01 Feb 2003.

Hav Skt MT Subhash Baboo Dixit (6919962A Now JC-726049A), 01 Jan 2003.

Hav Skt Sig Sukh Charan (6919971F Now JC-726050P), 01 Feb 2003.

Hav Skt Sig Rajender Singh (6919975X Now JC-726051X), 01 Feb 2003.

Hav Skt MT Anand Singh (6919995L Now JC-726052A), 19 Feb 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Sht Subash Chander (6913095L Now JC-726053H), 01 Jan 2003.

Hav Ptr (U) Vijay Bahadur Singh (6916671P Now JC-726054L), 01 Feb 2003.

Hav Amn Tech S Sundra Rajan (6922884Y Now JC-726055N), 01 Jan 2003.

Hav Amn Tech P. K. Mahapatra (6927840L: Now JC-726056W), 01 Jan 2003.

Hav Clk S Cont Jaswinder Singh (6917492F Now JC-726057Y), 01 Feb 2003.

Hav Skt MT Ramesh Chandra Sahoo (6919617M Now JC-726058F), 01 Feb 2003.

Hav Tex Rep Amar Singh (6912519K Now JC-726059K), 23 March 2003*

*(Gtd seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech Prabodha Kumar Nayak (6923351H Now JC-726060Y), 31 March 2003*

*(Gtd seniority wef 01 March 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech Pramod Kumar (6924371H Now JC-726061F), 01 April 2003.

Hav Amn Tech Bhoop Singh (6925005L Now JC-726062K), 18 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 March 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech Rahim Ahmed (6927750K Now JC-726063M), 01 March 2003.

Hav Amn Tech Rajani Kanta Borah (6927908F Now JC-726064P), 28 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 April 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Ravi Lal (6917515X Now JC-726065X), 01 April 2003.

Hav Clk S Cont Pritam Chand Katoch (6917520 H Now JC-726066A), 20 March 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Bashamber Singh (6917570K Now JC-726067H), 04 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Sampuran Singh (6917572P Now JC-726068L), 01 March 2003.

Hav Clk S Cont Balwan Singh (6917576L Now JC-726069N), 01 March 2003.

Hav Clk S Cont Malkiat Singh (6917583W Now JC-726070H), 01 March 2003.

Hav Clk S Cont Rattan Chand (6917592H Now JC-726071L), 15 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Jarnail Singh (6917595P Now JC-726072N), 01 March 2003.

Hav Clk S Cont Rabender Singh (6917605H Now JC-726073W), 01 March 2003.

Hav Clk S Cont Jagmohan (6917610H Now JC-726074Y), 01 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Rajender Singh (6917640F Now JC-726075F), 20 March 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Ompal Singh (6917642M Now JC-726076K), 01 April 2003.

Hav Clk S Cont Mool Raj Bhagat (6917644X Now JC-726077M), 01 March 2003.

Hav Clk S Cont Vinod Topno (6917645A Now JC-726078A), 10 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 April 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Ashok Kumar (6917646 H Now JC-726079X), 01 April 2003.

Hav Clk S Cont Rachhpal Singh (6917647L Now JC-726080M), 07 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Subhash Chand Kaundal (6917648N Now JC-726081P), 01 April 2003.

Hav Clk S Cont Prem Prakash (6917649W Now JC-726082X), 01 April 2003.

Hav Clk S Cont Sukhdev Singh Sandhu (6917652W Now JC-726083A), 25 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt GS&C Abhay Kumar (6916408K Now JC-726084H), 01 April 2003.

Hav Skt GS&C Akhilesh Kumar (6916977K Now JC-726085L), 04 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Wpn P. C. Yadav (6919354Y Now JC-726086N), 01 April 2003.

Hav Skt Sig Markanda Behera (6919946H Now JC-726087W), 30 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Mt Rajan T. P. (6919850A Now JC-726088Y), 01 April 2003.

Hav Skt Mt Kishore Chandra Raju (6919945A Now JC-726089F), 08 May 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Engr Satish Kumar (6919999F Now JC-726090W), 15 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Engr Basant Kumar (6920015L Now JC-726091Y), 10 April 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Wpn Anup Singh (6920030A Now JC-726092F), 27 March 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Mt Hajare Lal B (6920033N Now JC-726093N), 21 Apr 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Amn Abey Singh (6920035Y Now JC-726094Y), 17 Apr 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Skt Amn Ram Awatar Singh (6920041M Now JC-726095P), 05 Apr 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Sht Ramvir Singh (6911350N Now JC-726096X),
17 Apr 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Sht Ruldu Ram (6913322A Now JC-726097A), 01 Mar 2003.

Hav Shgd Rattan Singh (6913246Y Now JC-726098H),
19 Apr 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Dvr Spl Subhash Chand (6913313Y Now JC-726099L), 05 Apr 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Amn Tech Pratap Singh (6923298H Now JC-726100P), 28 Apr 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Prem Chand Vishodia (6917635W Now JC-726101 X), 05 May 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Mar 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Clk S Cont Shiv Kumar (6917653Y Now JC-726102A), 01 Apr 2003.

Hav Skt Engr Vijayan K (6919854W Now JC-726103H),
01 Apr 2003.

Hav Skt Wpn Ram Pyare Singh Yadav (6919889M Now JC-726104L), 01 Apr 2003.

Hav Shgd Prem Chand (6911810K Now JC-726105N),
01 Mar 2003.

Hav Shgd Ram Dawar Yadav (6912901A Now JC-726106W), 13 Apr 2003.*

*(Gtd seniority wef 06 Apr 2003 without effect on pay and allces.).

Hav Shgd Deepak Limboo (6913036Y Now JC-726107Y), 26 Mar 2003.

Hav Shgd Kulkarni Sachin Kamalakar (6929543W Now JC-726108F), 14 Apr 2003.*

*(Gtd seniority wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces.).

Hav Clk Gd Ravendra Kumar Manda (6914204Y Now JC-726109K), 01 May 2003.

Hav Clk S Cont Bishwa Nath Frasad (6917660P Now JC-726110Y), 01 May 2003.

Hav Clk Gd Magan Deb Thakur (6914903K Now JC-726111F), 01 May 2003.

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Subedar Major Religious Teacher (Pandit)

Substantive Subedar Major (RT) (Pandit) Panchanan Mishra (JC-84855L), 06 Nov 2002.*

*Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

To be Subedar Religious Teacher (Pandit)

Substantive Subedar (RT) (Pandit) Gobind Prasad Pathak (JC-722009F), 04 Dec 2002.*

*Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

Substantive Subedar (RT) (Pandit) Mritunjay Prasad Shukla (JC-722010W), 02 Dec 2002.*

*Gtd seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces.

REGULAR ARMY

SPECIAL LIST

ARMY ORDNANCE CORPS

To be Naib Subedar Religious Teacher (Pandit)

JC-NYA Naib Subedar (RT) (Pandit) Ajay Salil Pokhriyal (Now JC-725876W), 25 Sep 2002.

S.K. KHURANA,
Under Secy.

No. 547, dated 26th August, 2003.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against them :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Alok Sobti (MR-07115W), AMC, 20 Jan 2003.

Sreenivasa S (MS-14073X) (MR-07841L), AMC, 27 Jan 2003.

Flt Lt. to be Sqd Ldr

Yashvir Singh Dahiya (MS-13599X)(MR-07835X)(AF-25551F), AMC, 15 Jan 2003.

M. SRIVASTAVA
Brig.
Dy DGAFFMS(P)

(NAVY BRANCH)

No. 548, dated 25th August, 2003.—The President is pleased to make the following promotions with effect from the dates shown against their names :—

INDIAN NAVY

Lt CDR (SD) to CDR (SD)(TS)

Date of promotion/Date of seniority.

Lal Chand (80105F), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.

Jagroop Singh (81949Y), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.

MR Mareppanavar (83936N), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 PP Singh (89058B), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 BS Pillai (86033B), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 RV Singh (86344K), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 SK Sud (86869B), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.

Lt (SD) to Lt CDR (SD)

T Singh (81306K), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 Gursaran (82012R), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 TD Bhatt (82013T), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 MA Rathor (82014W), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 S Kumar (83968K), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 K Singh (83969N), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 Beli Ram (84615F), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 Ram Kanwar (84616H), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 K Masih (83212T), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 PC Divedi (83213W), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 B Lal (88598H), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.
 H S Prakasha (89104H), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 A N P Singh (89105K), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 P K Sharma (89106N), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 R P Yadav (89107R), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 N K Tripathi (85096Z), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 M Singh (86054A), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 T R Bisishth (86900Z), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 J S Yadav (86901A), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 V M Tyagi (87608H), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 B M George (88120Y), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 R C Dash (88121Z), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 Puran Chand (89764H), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.
 J S Singh (89766N), 14 Jan 2002/01 Apr 2000.

GC Rai (85099F), Harsh Kumar (85100H).—Promoted on 01 Oct 2001 with the antedate seniority with effect from 01 Apr 2001 (for financial purpose).

Lt Cdr (SD) to Cdr (SD) (Time Scale)

M Bodake (81291A), 01 Apr 2001.
 GJ Vadukkoot (81959W), 01 Apr 2001.
 Dharam Vir (81963B), 01 Apr 2001.
 Abdul Wahid (85084Y), 01 Apr 2001.
 M Ravindran (86035H), 01 Apr 2001.
 BK Singh (86346R), 01 Apr 2001.
 JK Neelkanta (87568T), 01 Apr 2001.
 Rishi Ram (87569W), 01 Apr 2001.
 Ishwar Singh (87570Y), 01 Apr 2001.

Lts (SD) to Lt Cdr (SD)

MN Gosh (80146Z), 01 Apr 2001.
 RP Mohato (81307N), 01 Apr 2001.
 D Singh (83972W), 01 Apr 2001.
 SK Singh (88599K), 01 Apr 2001.
 KN Nathan (89110Y), 01 Apr 2001.
 KS Ambarian (86058K), 01 Apr 2001.
 SVS Murthy (86059N), 01 Apr 2001.
 Abraham Roy (86358T), 01 Apr 2001.
 Om Parkash (87610N), 01 Apr 2001.
 AR Raut (88326R), 01 Apr 2001.
 TD Thomas (83973Y), 01 Jun 2001.

SLts (SD) to LT (SD)

KK Kshirsagar (86370K), 01 Apr 2001.
 MK Sharma (87625Y), 01 Apr 2001.
 SK Malik (88612R), 01 Apr 2001.
 Satish Kumar (89133Z), 01 Apr 2001.
 K Sharma (89780W), 01 Apr 2001.
 Ag Cdr/Cdr (TS) (SD) to substantive rank of Cdr (SD)
 VM Philip (89048F), 01 Oct 2001.
 BS Pillai (86033B), 01 Oct 2001.
 ST Perumal (81962A), 01 Oct 2001.
 Kashmir Singh (89740B), 01 Oct 2001.

Lt Cdr (SD) to Cdr (SD)(TS)

C Meganathan (81292B), 01 Oct 2001.
 KP Mathew (81293F), 01 Oct 2001.
 Makhan Singh (81294H), 01 Oct 2001.
 AS Sian (81296N), 01 Oct 2001.
 AS Xavior (85085Z), 01 Oct 2001.
 Pampapati (86347T), 01 Oct 2001.
 BS Narang (87572A), 01 Oct 2001.
 PT John (88317W), 01 Oct 2001.
 GD Sachdeva (86874R), 01 Jan 2002.

Lts (SD) to Lt CDR (SD)

KK Manapure (81308R), 01 Oct 2001.
 SK Rana (84618N), 01 Oct 2001.
 GS Prakash Babu (89111Z), 01 Oct 2001.
 KG Thomas (87611R), 01 Oct 2001.
 MDB Kumar (88327T), 01 Oct 2001.
 SG Kumar (89768T), 01 Oct 2001.

SLts (SD) to Lt (SD)

KC Rauta (81593N), 01 Oct 2001.
 JS Duni (89134A), 01 Oct 2001.
 DS Yadav (85111H), 01 Oct 2001.
 SK Singh (86068H), 01 Oct 2001.

Rajendra Kumar (87626Z), 01 Oct 2001.

JN Rai (88127N), 01 Oct 2001.

Lt Cdr (SD) to Cdr (SD) (Time Scale)

PK Sarker (80116F), 01 Oct 2000.

KPR Pillai (81953F), 01 Oct 2000.

Varinder Iqbal (89061K), 01 Oct 2000.

BD Yadav (85082T), 01 Oct 2000.

Rani Mehar (87566N), 01 Oct 2000.

AB Chalke (81956N), 01 Oct 2000.

Lt (SD) to Lt Cdr (SD)

Satya Bir Singh (83966F), 14 Jan 2000/01 Apr 2000.

Parveen Kumar (82021K), 01 Oct 2000.

AV Sebastian (83971T), 01 Oct 2000.

Parshotam Singh (84617K), 01 Oct 2000.

Satish Kumar (85098B), 01 Oct 2000.

Naresh Kumar (86057H), 01 Oct 2000.

Balbir Singh (86904H), 01 Oct 2000.

KL Verma (89767R), 01 Oct 2000.

Lieutenant Commander to Commander (Time Scale)

S Mankotia (02128K), 01 Jul 2000.

SN Mohanty (02130R), 01 Jul 2000.

G Mohan (02131T), 01 Jul 2000.

UA Kaisare (02117K), 01 Jul 2000.

SB Gaur (02112Z), 01 Jul 2000.

AS Baath (02106K), 01 Jul 2000.

GS Mehta (02132W), 01 Jul 2000.

K Muralidharan (02134Z), 01 Jul 2000.

Anil Sharma (02154W), 01 Jul 2000.

RK Agarwal (02103B), 01 Jul 2000.

SS Sidhu (02161K), 01 Jul 2000.

PK Ranganathan (02143W), 01 Jul 2000.

PM Londhe (02125B), 01 Jul 2000.

J Moses (02127H), 01 Jul 2000.

SK Shrivastava (02160H), 01 Jul 2000.

P Ravi (02148F), 01 Jul 2000.

SK John (40843Z), 01 Jul 2000.

IP Singh (50699Z), 01 Jul 2000.

GS Rait (01970A), 01 Jul 2000.

I Aravanan (40860N), 04 Aug 2000.

PS Josan (40882N), 18 Aug 2000.

DBC Jambekar (40858H), 04 Aug 2000.

D Bhargava (40864Y), 05 Aug 2000.

SM Yusuf (40863W), 04 Aug 2000.

S U M Rao (40861R), 04 Aug 2000.

AS Prakash (50726K), 31 Aug 2000.

DR Sharma (50719W), 04 Aug 2000.

PS Malayappan (50723B), 21 Aug 2000.

RV Mohan (02135A), 01 Sep 2000.

PK Mitra (50720Y), 04 Aug 2000.

S Mukerji (50721Z), 10 Aug 2000.

N Srikant (50725H), 29 Aug 2000.

A Pattanaik (50724F), 24 Aug 2000.

K M Desai (01950-F), 01 Jan 2000.

Xavier PD Rockey (01987-R), 01 Jan 2000

Sudhakar Patnaik (01966-T), 01 Jan 2000

Arvind Kumar (01957-Y), 01 Jan 2000

Subhash Samuel (01974-K), 01 Jan 2000

SS Yadav (01988-T), 01 Jan 2000

Arup Chatterjee (01947-Z), 01 Jan 2000

Damian John (01956-W), 01 Jan 2000

*In accordance with S. N1—2.5.98 the officers have completed 21 years of commission service for promotions to Cdr. (T.S)

KBM Sahi (02029-K), 14 Jan 2000

R K Srivastava (02039-H), 14 Jan 2000

U C Baruah (01993-B), 14 Jan 2000

P S Rana (01972-F), 14 Jan 2000

J J Puthur (02074-N), 14 Jan 2000

Rajeev Sharma (02080-A), 14 Jan 2000

Lalit Kumar (02056-Y), 14 Jan 2000

H S Roy (02073-K), 14 Jan 2000

M K Subramanian (02077-W), 14 Jan 2000

Sekar Subramaniam (02085-N), 14 Jan 2000

Rajeev Khanduri (02097-R), 14 Jan 2000

Madhukar Joshi (02053-R), 14 Jan 2000

V Krishnan (02059-B), 14 Jan 2000

Arun Kumar Verma (02092-B), 14 Jan 2000

Rakesh Kumar (02057-Z), 14 Jan 2000

T V Thakker (02090-Z), 14 Jan 2000

H M R Acharya (02044-W), 14 Jan 2000

A R Gaonkar (02050-H), 14 Jan 2000

S S Thatte (40781-H), 14 Jan 2000

B K Sharma (40803-H), 14 Jan 2000
I G Sureshkumar (40820-Y), 14 Jan 2000
L Purushothaman (40819-W), 14 Jan 2000
A K Sharma (40802-F), 14 Jan 2000
P N Rao (40799-Z), 14 Jan 2000
N Mohammed Hanifa (40816-N), 14 Jan 2000
Sudhir Kumar Dua (40788-Z), 14 Jan 2000
S B Sakpal (40813-F), 14 Jan 2000
K L Narasimha (40811-A), 14 Jan 2000
T R Mathews (40794-N), 14 Jan 2000
Alok Mohan (40814-H), 14 Jan 2000
Bharat Chauhan (40824-F), 14 Jan 2000
K Sunilsha (40830-W), 14 Jan 2000
A K Namdeo (40833-A), 14 Jan 2000
A N N Swamy (40835-F), 14 Jan 2000
Ranjive Nair (50651-R), 14 Jan 2000
M A K Jailani (50660-K), 14 Jan 2000
A K Saxena (50674-T), 14 Jan 2000
N D Rao (50673-R), 14 Jan 2000
T B Rangachari (50675-W), 14 Jan 2000
J T Roy (50683-N), 14 Jan 2000
P K Rautray (50685-T), 14 Jan 2000
Shanker Singh (50690-B), 14 Jan 2000
G C Nayak (50686-W), 14 Jan 2000
T P Varkie (50689-A), 14 Jan 2000
H C Dhyani (70224-Z), 14 Jan 2000
M S Rao (70228-H), 14 Jan 2000
P Badala (02099-W), 11 Feb 2000
B L Agarwal (40838-N), 11 Feb 2000
S K Dutta (40839-R), 11 Feb 2000
S G Karve (02055-W), 01 May 2000
Dilip Kumar Chowdri (02174-R), 01 July 2000
A K Pillai (02215-H), 01 Jan 2001
S S R Naronakar (40956-F), 28 Jan 2001
Piyus Pandey (50734-B), 01 Jan 2001
V K Pant (02234-A), 09 Feb 2001
N R Samanewadi (40892-K), 09 Feb 2001
S D Rajkumar (40893-N), 09 Feb 2001
S Nagagouda (40895-T), 22 Feb 2001

S Prakash (50746-F), 20 Feb 2001
A N Mani (50744-A), 09 Feb 2001
P Mishra (70241-N), 22 Feb 2001
R Wadhawan (02246-B), 01 Jan 2001
Sunil Sinha (02229-R), 01 Jan 2001
R Dutta (02179-A), 01 Jan 2001
C P Arockiasamy (02182-H), 01 Jan 2001
D K Gupta (02180-B), 01 Jan 2001
S John (02219-T), 01 Jan 2001
Y K Parashar (02220-W), 01 Jan 2001
I C Singh (02237-H), 01 Jan 2001
H C Sharma (02235-B), 01 Jan 2001
V Bhaskar (02186-T), 01 Jan 2001
Rajiv Sharma (02250-N), 01 Jan 2001
A N Kumar (02206-N), 01 Jan 2001
D S Chillar (02187-W), 01 Jan 2001
R Shrimal (02227-K), 01 Jan 2001
S C Kulhari (50733-A), 01 Jan 2001
JW Roberts (50736-H), 01 Jan 2001
N Pal (70235-Z), 05 Jan 2001
S K Mishra (70233-W), 05 Jan 2001
N Srivastava (02240-R), 01 Jan 2001
Ravi Dixit (02193-H), 01 Jan 2001
Parag Saxena (02228-N), 01 Jan 2001
Arun Gupta (02197-T), 01 Jan 2001
Rakesh Sharma (02249-K), 01 Jan 2001
D C Agarwal (40896-W), 01 Jan 2001
Lekh Raj (50740-T), 01 Jan 2001
A S Bhalerao (02230-T), 01 Jan 2001
S Ramanathan (02222-Z), 01 Jan 2001
D N Roy (50765-Z), 30 Aug 2001
R K Srivastava (02284-R), 01 July 2001
A Ananthanarayanan (02294-N), 01 July 2001
J P Chitkara (02264-W), 01 July 2001
A K R Sharma (02281-H), 01 July 2001
R Singh (02291-F), 01 July 2001
P S Bugalia (02258-F), 01 July 2001
V V S Datt (02265-Y), 01 July 2001
S D Singh (02285-T), 01 July 2001

S Sarkar (40914-K), 01 July 2001	S G Gajanan (40949-R), 03 May 2002
A Malhotra (50750-R), 01 July 2001	K K Bhaduri (40945-F), 03 May 2002
K N Reddy (03020-N), 16 Aug 2001	A Seth (Q2314-H), 01 July 2002
K Velu (40873-T), 04 Aug 2001	Surinder Singh (02512-H), 01 July 2002
R Kulkarni (40916-R), 17 Aug 2001	R Lalhall (02473-W), 01 July 2002
A Mishra (40910-A), 17 Aug 2001	Anil Kumar (02469-K), 01 July 2002
M Gupta (50801-F), 02 Aug 2002	R Tyagi (02501-H), 01 July 2002
S Ailawadi (40994-T), 13 Aug 2002	O P Krishnan (02467-F), 01 July 2002
C M Sharma (02358-H), 01 Jan 2002	N J Upadhyay (02502-K), 01 July 2002
S D Singh (02357-F), 01 Jan 2002	R Singh (02507-Y), 01 July 2002
H K Sinha (02339-R), 01 Jan 2002	D D Pant (02485-Y), 01 July 2002
Gurmit Singh (02349-N), 01 Jan 2002	D S Singh (02495-W), 01 July 2002
Jitender Singh (02304-K), 01 Jan 2002	N Kumar (02465-A), 01 July 2002
Rajender Kumar (02354-Z), 01 Jan 2002	G S Bhullar (02443-A), 01 July 2002
P Dokania (02309-Y), 01 Jan 2002	P G Yammiyavar (02456-F), 01 July 2002
G P Joseph (02305-N), 01 Jan 2002	P V R Rao (02489-F), 01 July 2002
T N Pandey (02301-B), 01 Jan 2002	A K Sharma (02516-T), 01 July 2002
Ashok Kumar (02319-W), 01 Jan 2002	H S Oberoi (02481-N), 01 July 2002
A K sharma (02335-F), 01 Jan 2002	M Mayank (02474-Y), 01 July 2002
S Thacker (02343-Z), 01 Jan 2002	P K Sharma (02515-R), 01 July 2002
S Guha (02432-A), 01 Jan 2002	G Gandham (02513-K), 01 July 2002
J S Malhan (02332-Z), 01 Jan 2002	N R Dighaokar (02452-Y), 01 July 2002
J S P Chinson (02344-A), 01 Jan 2002	G George (02455-B), 01 July 2002
A Sahni (02340-T), 01 Jan 2002	K J Jibkhate (02460-R), 01 July 2002
N Dash (02351-T), 01 Jan 2002	V Bhardwaj (02445-F), 01 July 2002
D Jeyakumar (02350-R), 01 Jan 2002	K R S Tomar (02499-B), 01 July 2002
B P Misra (02347-H), 01 Jan 2002	S M H Peeran (40967-F), 01 July 2002
S S Naranja (02355-A), 01 Jan 2002	R K Dhulipala (40962-W), 01 July 2002
K C Misra (40928-T), 01 Jan 2002	P K Sikdar (40970-N), 01 July 2002
B Sen (40971-R), 01 Jan 2002	J S Dhanoo (40961-T), 01 July 2002
S Kumar (50774-W), 01 Jan 2002	D Jaswal (40963-Y), 01 July 2002
Srivastava R (50770-K), 01 Jan 2002	A K Prasad (50793-N), 01 July 2002
A Das (50799-A), 01 Jan 2002	P Seth (50798-Z), 01 July 2002
V K Nagpal (50777-A), 01 Jan 2002	D Chakraborty (40951-W), 02 Aug 2002
S Sharma (50776-Z), 01 Jan 2002	R M Harite (50800-B), 02 Aug 2002
S D Sharma (50775-Y), 01 Jan 2002	S Dheenadayalan (40866-A), 04 Aug 2002
A K Prabhakar (40940-W), 15 Feb 2002	Lt Cdr (SD) to Cdr (SD) (TS)
S K Trivedi (02427-R), 15 Feb 2002	R R Yadav (80121-T), 01 Apr 2002
V K Sharma (40950-T), 03 May 2002	L Chhawri (81297-R), 01 Apr 2002
	Darshan Lal (84604-F), 01 Apr 2002

Ram Chander (86039-T), 01 Apr 2002

P S Saphia (86349-Y), 01 Apr 2002

L B Karagi (86350-Z), 01 Apr 2002

SPS Tomar (80120-R), 01 May 2002

Lts (SD) to Lt Cdr (SD)

Y Pal (81309-T), 01 Apr 2002

P Dass (82022-N), 01 Apr 2002

D S Manhas (82023-R), 01 Apr 2002

J Sarowa (84619-R), 01 Apr 2002

Y K Chauhan (84620-T), 01 Apr 2002

S R Doke (85101-K), 01 Apr 2002

M K Chail (86060-R), 01 Apr 2002

Saroop Singh (86061-T), 01 Apr 2002

Ravindra Kumar (86359-W), 01 Apr 2002

P D Giri (86905-K), 01 Apr 2002

Amrjit Singh (87612-T), 01 Apr 2002

A C David (87613-W), 01 Apr 2002

R Khantwal (88122-A), 01 Apr 2002

D R Rao (88123-B), 01 Apr 2002

M C Nair (88328-W), 01 Apr 2002

R S Yadav (88600-N), 01 Apr 2002

Satwant Singh (88601-R), 01 Apr 2002

Madan Singh (88602-T), 01 Apr 2002

R K Saini (89112-A), 01 Apr 2002

Uday Bir (89113-B), 01 Apr 2002

D P Naithani (89114-F), 01 Apr 2002

N N Tripathi (89518-Z), 01 Apr 2002

Ramishwar Singh (89769-W), 01 Apr 2002

SLts (SD) to Lt (SD)

J Das (89135-B), 01 Apr 2002

D R Gurang (85112-K), 01 Apr 2002

B Debnath (86371-Y), 01 Apr 2002

Ashok Kumar (89781-Y), 01 Apr 2002

M CHANDERASEKHAR

Dy Dir. (OA&R)

ARMY BRANCH

No. 549, dated 26 August, 03—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps w.e.f. 24.09.2001 and to grant him permanent commission in the

Army Medical Corps w.e.f. the same date under AI 74/76 as amended :—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (On Prob)

Sreenivasa S (MS-14073-X), (MR-07841-L), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 27.01.1999 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.10.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his short service commission in the Army Medical Corps w.e.f. 04.12.2001 and to grant him permanent commission in the Army Medical Corps w.e.f. the same date under AI 74/76 as amended :—

To be Flt Lt (On Prob)

Yeshvir Singh Dahiya (MS-13599-X) (MR-07835-X), (AF-25551-F), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 15.01.1999 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 20.05.2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Ameet Kumar (MS-13900-H) (MR-07839-N) (25583) AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 01.10.1999 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 01.12.2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

M. SRIVASTAVA

Brig.

Dy DGAFFMS (P)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 550, dated 22 August, 03—In Ministry of Defence Notification No. 537 dated 02 Aug 2002, published in Gazette of India No. 36 dated 02 Sep 2002 (Part I Section 4), under the heading 'Regular Army' sub heading 'Defence Security Corps' below 'To be Nb Sub (GD)' :—

For —**Hav Iqbal Singh (3373682-A Now JC-841288-F), 04 June 2002

Hav Lala Ram (13918968-M Now JC-841293-M), 29 May 2002

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Apr 2001 without effect on pay and allowances)

Read—**Hav Iqbal Singh (3373682-A Now JC-841288-F), 04 June 2002

Hav Lala Ram (13918968-M Now JC-841293-M), 29 May 2002

** (Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Apr 2002 without effect on pay and allowances)

S. K. KHURANA

Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2002

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND

PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2002